



To watch an in-depth discussion on the topic, click on the YouTube link below: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

For regular updates on UPSC and PCS preparation, join our Telegram Channel: <https://t.me/patrioticIAS>

12_11_2024 DAILY CURRENT AFFAIRS

TOPICS COVERED

1. **10 armed militants killed by CRPF in Manipur clash**
2. **UN raises alarm as climate talks begin in Azerbaijan (GS Paper-III: Environment)**
3. **No religion encourages polluting activities: SC on bursting firecrackers (GS Paper-III: Pollution)**
4. **The LAC agreement, the détentés and the questions (GS Paper-II: India-Canada)**
5. **Giving shape to India's carbon credit mechanism (GS Paper-III: Environment)**
6. **Counting right (GS Paper-II: Caste Survey)**
7. **Political meltdown (GS Paper-II: Effect of Developed Countries)**
8. **Can AMU finally claim a 'minority' status? (GS Paper-II: Article 30)**
9. **The underbelly of Europe's digital euro (GS Paper-III: Digital Currency)**
10. **Trial reforms, promoting mediation among new Chief Justice's priorities (GS Paper-II: Judiciary)**
11. **For farmers, daily pursuit of scarce DAP in sowing season (PCS)**
12. **Women naval officers circumnavigating globe reach Australia in their first stop (PCS)**
13. **EAM bats for trade in national currencies ahead of Russia meet**



10 armed militants killed by CRPF in Manipur clash

The armed men attacked a CRPF camp at **Jakuradhor** and a police station at **Borobekra**; Kuki-Zo Council demands thorough probe into deaths of 'village volunteers', calls for a 'total shutdown'

The Hindu Bureau
NEW DELHI/GUWAHATI

Ten armed extremists were killed in Manipur's Jiribam in "retaliatory fire" after a Central Reserve Police Force (CRPF) post came under attack on Monday, the police said.

The Manipur police said the extremists attacked a CRPF post at Jakuradhor and the Borobekra police station around 3 p.m. The places are close to Cachar district in southern Assam.

"The attack was fiercely retaliated by the CRPF and the police. After 40-45 minutes of heavy exchange of fire, the situation was brought under control. After the firing ceased, the area was searched and bodies of 10 militants were recovered along with arms

Bloodshed again

Manipur erupted in violence after more than a month of quiet

■ **Nov. 7:** A Hmar tribal woman was shot, captured, and burned alive in Jiribam district bordering Assam

■ **Nov. 9:** Gunmen shot and killed a Meitei woman working in a paddy field in Bishnupur district in Imphal Valley

■ **Nov. 11:** Three people, including a Naga, were injured in attacks by gunmen in Imphal East and Bishnupur districts

■ **Monday's incident occurred at the Jakuradhor CRPF post in Jiribam district**



and ammunition," the police said.

The Kuki-Zo Council, a civil society group in the neighbouring Churachandpur district, put the figure at 11 while claiming the dead were "Kuki-Zo village volunteers".

Security sources said the closest outpost of the

Assam Rifles in the area, about 5-6 km by road, got a call about gunfire at the CRPF outpost around 2.30-2.35 p.m.

An Assam Rifles party then responded to the call for help and reached the spot in 12-15 minutes, when they were informed that at least eight of the militants

had been killed, one of the personnel said.

They added that the other bodies were subsequently "brought over" by the police and CRPF party.

Sanjeev Kumar, a CRPF constable, sustained a bullet injury and was evacuated to the Silchar Medical College and Hospital in Assam for treatment.

The police said that three AK-47 rifles, four self-loading rifles, two INSAS rifles, a rocket-propelled grenade launcher, a pump action gun, bulletproof helmets, and magazines were recovered.

"Operations in and around Jakuradhor, under the Borobekra police station, Jiribam, continues to flush out armed militants."

CONTINUED ON
» PAGE 12

10 armed militants killed by CRPF in Manipur clash

मणिपुर में सीआरपीएफ ने 10 हथियारबंद उग्रवादियों को मार गिराया





The armed men attacked a CRPF camp at Jakuradhor and a police station at Borobekra; Kuki-Zo Council demands thorough probe into deaths of 'village volunteers', calls for a 'total shutdown'

हथियारबंद लोगों ने जाकुराधोर में सीआरपीएफ कैंप और बोरोबेकरा में पुलिस स्टेशन पर हमला किया; कुकी-ज़ो काउंसिल ने 'ग्रामीण स्वयंसेवकों' की मौतों की गहन जांच की मांग की, 'पूर्ण बंद' का आह्वान किया

Armed Clash in Manipur's Jiribam
मणिपुर के जिरिबाम में सशस्त्र संघर्ष

- Ten armed extremists were killed in Manipur's **Jiribam** in "retaliatory fire" after a **CRPF post** came under attack on Monday, the police said.
सोमवार को मणिपुर के जिरिबाम में CRPF पोस्ट पर हमला होने के बाद "जवाबी गोलीबारी" में दस सशस्त्र उग्रवादी मारे गए, पुलिस ने बताया।
- The Manipur police said the extremists attacked a CRPF post at **Jakuradhor** and the **Borobekra police station** around **3 p.m.**
मणिपुर पुलिस ने बताया कि उग्रवादियों ने जकुराधोर में CRPF पोस्ट और बोरोबेकरा पुलिस स्टेशन पर करीब दोपहर 3 बजे हमला किया।
- The places are close to **Cachar district** in southern Assam.
ये स्थान असम के दक्षिणी कछार जिले के पास स्थित हैं।
- "The attack was fiercely retaliated by the CRPF and the police. After **40-45 minutes** of heavy exchange of fire, the situation was brought under control," the police said.
पुलिस ने बताया, "CRPF और पुलिस ने जोरदार जवाबी कार्रवाई की। 40-45 मिनट की भारी गोलीबारी के बाद स्थिति नियंत्रण में लाई गई।"
- After the firing ceased, the area was searched, and **bodies of 10 militants** were recovered along with **arms and ammunition**.
गोलीबारी समाप्त होने के बाद क्षेत्र की तलाशी ली गई और 10 आतंकियों के शव के साथ हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए।
- The **Kuki-Zo Council**, a civil society group in **Churachandpur** district, claimed the dead were "Kuki-Zo village volunteers."
कुकी-ज़ो काउंसिल, जो कि चुराचांदपुर जिले की एक नागरिक समाज समूह है, ने दावा किया कि मारे गए लोग "कुकी-ज़ो गांव के स्वयंसेवक" थे।
- Security sources said the closest outpost of the **Assam Rifles** in the area, about **5-6 km** by road, received a call about gunfire at the CRPF outpost around **2:30-2:35 p.m.**
सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि इस क्षेत्र में सड़क मार्ग से लगभग 5-6 किमी की दूरी पर स्थित असम राइफल्स की निकटतम चौकी को दोपहर 2:30-2:35 बजे CRPF चौकी पर गोलीबारी के बारे में कॉल प्राप्त हुआ।
- An **Assam Rifles** party then responded and reached the spot in **12-15 minutes**, where they were informed that at least **eight militants** had been killed.



असम राइफल्स की एक पार्टी ने प्रतिक्रिया दी और 12-15 मिनट में मौके पर पहुंची, जहां उन्हें बताया गया कि कम से कम आठ उग्रवादी मारे गए हैं।

- The other bodies were subsequently “brought over” by the police and CRPF party. बाकी शव बाद में पुलिस और CRPF पार्टी द्वारा "लाए गए" थे।
- **Sanjeev Kumar**, a CRPF constable, sustained a **bullet injury** and was evacuated to the **Silchar Medical College and Hospital** in Assam for treatment. **संजय कुमार**, एक CRPF कांस्टेबल, को **गोलियों की चोट** लगी और उन्हें उपचार के लिए असम के **सिलचर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल** ले जाया गया।
- The police recovered **three AK-47 rifles, four self-loading rifles, two INSAS rifles, a rocket-propelled grenade launcher, a pump-action gun, bulletproof helmets, and magazines.** पुलिस ने **तीन AK-47 राइफल, चार सेल्फ-लोडिंग राइफल, दो INSAS राइफल, एक रॉकेट-प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर, एक पंप-एक्शन गन, बुलेटप्रूफ हेलमेट और मैगजीन** बरामद किए।
- “Operations in and around **Jakuradhor**, under **Borobekra police station, Jiribam**, continue to flush out armed militants.” **बोरोबेकरा पुलिस स्टेशन, जिरिबाम** के अंतर्गत **जकुराधोर** और इसके आसपास के क्षेत्रों में सशस्त्र आतंकियों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन जारी हैं।

UN raises alarm as climate talks begin in Azerbaijan

UN raises alarm as climate talks begin in Azerbaijan

अज़रबैजान में जलवायु वार्ता शुरू होने पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई

COP-29: Challenges and Developments
COP-29: चुनौतियाँ और विकास

- The **29th Conference of the Parties**, or **COP-29**, began in **Baku, Azerbaijan**, on **Monday** perhaps with more **headwinds** than ever before. **29वीं पार्टियों की सम्मेलन**, या **COP-29**, **सोमवार** को **बाकू, अज़रबैजान** में शुरू हुआ, शायद पहले से अधिक **बाधाओं** के साथ।
- As talks opened, the **United Nations** warned that the **Paris climate agreement's** goals “are in great peril” and **2024** is on track to **break new temperature records.**

जैसे ही वार्ता शुरू हुई, संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी

GS Paper III: Environment

The 29th Conference of the Parties, or COP-29, began in Baku, Azerbaijan, on Monday perhaps with more headwinds than ever before.

As talks opened, the United Nations warned that the Paris climate agreement's goals “are in great peril” and 2024 is on track to break new temperature records. The period from 2015 to 2024 will also be the warmest decade ever recorded, the UN's World Meteorological Organization (WMO) said in a new report.

The re-election of Donald Trump as U.S. President has already cast a shadow over the meet where the main focus is on agreeing on climate financing – who pays, how much is needed, and how the funds would be used to address climate adaptation, mitigation and loss/damage.



Global goal: Participants walk past a banner on the opening day of COP-29, in Baku on Monday. GETTY IMAGES

New WMO data showed that current global warming is about 1.3 degrees Celsius higher than the average of the previous 10 years, compared to 1.2 degrees Celsius a year ago, and the current year is hotter by 1.54 degrees Celsius, compared to 1.45 degrees Celsius a year ago.

While Mr. Trump, who is president-elect of the world's biggest economy, has repeatedly cast doubts on climate change, wars in West Asia and Ukraine, among other crises, have

strained climate diplomacy. These could impact the chances of increasing climate finance and agreeing on rules around it, which are among the primary goals of COP-29, which is being labelled “finance COP”. Mr. Trump has threatened to pull the U.S. out of the 2015 Paris Agreement, which he did during his first term, but the move was later reversed by President Joseph Biden.

CONTINUED ON
» PAGE 12





कि पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्य "बहुत खतरे में हैं" और 2024 नए तापमान रिकॉर्ड तोड़ने के रास्ते पर है।

- The period from **2015 to 2024** will also be the **warmest decade ever recorded**, the UN's World Meteorological Organization (WMO) said in a new report.
2015 से 2024 की अवधि भी अब तक का सबसे गर्म दशक साबित होगा, संयुक्त राष्ट्र की विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने एक नई रिपोर्ट में कहा।
- The **re-election of Donald Trump as U.S. President** has already cast a shadow over the meet where the main focus is on **agreeing on climate financing** — who pays, how much is needed, and how the funds would be used to address **climate adaptation, mitigation and loss/damage**.
डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचित होने ने इस बैठक पर पहले ही छाया डाली है जहाँ मुख्य ध्यान जलवायु वित्तपोषण पर सहमति पर है – कौन भुगतान करेगा, कितनी राशि की आवश्यकता है, और धन का उपयोग जलवायु अनुकूलन, न्यूनीकरण और हानि/क्षति को संबोधित करने के लिए कैसे किया जाएगा।
- New **WMO data** showed that current **global warming** is about **1.3 degrees Celsius** higher than the average of the previous **10 years**, compared to **1.2 degrees Celsius** a year ago, and the current year is hotter by **1.54 degrees Celsius**, compared to **1.45 degrees Celsius** a year ago.
नए **WMO डेटा** ने दिखाया कि वर्तमान वैश्विक गर्मी पिछले **10 वर्षों** के औसत से लगभग **1.3 डिग्री सेल्सियस** अधिक है, जबकि एक साल पहले यह **1.2 डिग्री सेल्सियस** था, और वर्तमान वर्ष पिछले साल की तुलना में **1.54 डिग्री सेल्सियस** अधिक गर्म है, जबकि एक साल पहले यह **1.45 डिग्री सेल्सियस** था।
- While **Mr. Trump**, who is **president-elect** of the world's **biggest economy**, has repeatedly cast doubts on **climate change, wars in West Asia and Ukraine**, among other **crises**, have strained **climate diplomacy**.
जबकि श्री ट्रंप, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के अधिवक्ता राष्ट्रपति हैं, ने बार-बार जलवायु परिवर्तन पर संदेह जताया है, पश्चिम एशिया और यूक्रेन में युद्ध सहित अन्य संकटों ने जलवायु कूटनीति को तनावपूर्ण बना दिया है।
- These could impact the chances of **increasing climate finance** and **agreeing on rules** around it, which are among the primary goals of **COP-29**, which is being labelled "**Finance COP**".
ये जलवायु वित्त को बढ़ाने और इसके आसपास **नियमों पर सहमति** की संभावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं, जो **COP-29** के प्रमुख लक्ष्यों में से हैं, जिसे "वित्त COP" के रूप में लेबल किया जा रहा है।
- **Mr. Trump** has threatened to **pull the U.S. out of the 2015 Paris Agreement**, which he did during his **first term**, but the move was later **reversed by President Joseph Biden**.
श्री ट्रंप ने 2015 पेरिस समझौते से अमेरिका को बाहर निकालने की धमकी दी है, जिसे उन्होंने अपने पहले कार्यकाल के दौरान किया था, लेकिन बाद में इस कदम को राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन ने रद्द कर दिया।



No religion encourages polluting activities: SC on bursting firecrackers

Pollution affects the fundamental right to health of citizens, says the court; gives Delhi govt. time till November 25 to take an appropriate decision on the idea of a perpetual year-round ban

GS Paper III: Pollution

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The Supreme Court on Monday observed that religion does not encourage polluting activities like bursting firecrackers which affect the fundamental right to health of citizens.

A Bench, headed by Justice A.S. Oka, made the remark while recording the Delhi government's delayed move to issue a firecracker ban in the national capital two days after Dussehra, on October 14, possibly allowing sellers and enthusiasts to stockpile ahead of Deepavali.

The Delhi Police, represented by Additional Solicitor General Aishwarya Bhati, too complained that it did not have enough time to ensure compliance of the ban for Deepavali.

On the court's question of imposing a perpetual, year-long ban on the sale and bursting of firecrack-



Loud and clear: The court has directed the Delhi Police chief to file an affidavit putting on record the steps taken to implement the ban. FILE PHOTO

ers, the Delhi government appeared non-committal, saying it had to consult with stakeholders.

"Who are these stakeholders?" Justice Oka asked the Delhi government counsel. She said "numerous" residents' welfare associations were against the firecracker ban.

"We are talking about a ban through the year – for elections, weddings, social events, etc.," Justice Oka

said.

The court gave the Delhi government time till November 25 to take a decision on a perpetual ban.

Senior advocate Gopal Sankaranarayanan, appearing for a petitioner, and *amicus curiae*, senior advocate Aparajita Singh, said the government was unnecessarily trying to get away from the responsibility of compliance with an apex court order by taking

refuge behind a Hindu festival.

"The right to live in a pollution-free atmosphere is a fundamental right of every citizen. *Prima facie*, we are of the view that no religion encourages any activity that creates pollution. If firecrackers are burst in this fashion, it affects the fundamental right to health of citizens," the Supreme Court recorded in its order.

'No sale in Delhi'

It directed that there would be no sale or manufacture of firecrackers, including through online marketing platforms, in the capital. The court ordered the Delhi Police to form a special cell for the implementation of this order.

The Delhi Police Commissioner was directed to file a personal affidavit by November 25, putting on record the steps taken to implement the ban.

No religion encourages polluting activities: SC on bursting firecrackers





कोई भी धर्म प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देता: सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे फोड़ने पर कहा

Pollution affects the fundamental right to health of citizens, says the court; gives Delhi govt. Time till November 25 to take an appropriate decision on the idea of a perpetual year-round ban

अदालत ने कहा कि प्रदूषण नागरिकों के स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है; दिल्ली सरकार को पूरे साल के लिए प्रतिबंध लगाने के विचार पर उचित निर्णय लेने के लिए 25 नवंबर तक का समय दिया गया

Supreme Court on Firecracker Ban and Public Health

सुप्रीम कोर्ट द्वारा पटाखा प्रतिबंध और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर निर्णय

- The Supreme Court on Monday observed that religion does not encourage polluting activities like bursting firecrackers, which affect the fundamental right to health of citizens.
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा कि धर्म प्रदूषणकारी गतिविधियों जैसे पटाखे फोड़ने को प्रोत्साहित नहीं करता, जो नागरिकों के स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है।
- A Bench headed by Justice A.S. Oka made this remark while noting the Delhi government's delayed firecracker ban in the national capital two days after Dussehra, on October 14, potentially allowing sellers to stockpile ahead of Deepavali.
न्यायमूर्ति ए.एस. ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने दशहरा के दो दिन बाद, 14 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी में पटाखा प्रतिबंध में देरी की, जिससे दीपावली से पहले विक्रेताओं को स्टॉकपिले करने का मौका मिल सकता है।
- The Delhi Police, represented by Additional Solicitor General Aishwarya Bhati, also complained of insufficient time to ensure compliance with the ban for Deepavali.
दिल्ली पुलिस, जिसका प्रतिनिधित्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने किया, ने दीपावली के लिए प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित करने के लिए समय की कमी की भी शिकायत की।
- When the court raised the question of a perpetual, year-long ban on firecrackers, the Delhi government was non-committal, citing the need to consult stakeholders.
जब अदालत ने पटाखों पर साल भर के स्थायी प्रतिबंध का सवाल उठाया, तो दिल्ली सरकार ने हितधारकों से परामर्श की आवश्यकता का हवाला देते हुए अप्रतिबद्ध रही।
- "Who are these stakeholders?" Justice Oka asked the Delhi government counsel, who replied that numerous residents' welfare associations opposed the firecracker ban.
"ये हितधारक कौन हैं?" न्यायमूर्ति ओका ने दिल्ली सरकार के वकील से पूछा, जिन्होंने उत्तर दिया कि कई निवासियों के कल्याण संघ पटाखा प्रतिबंध के विरोध में हैं।
- "We are talking about a year-round ban—for elections, weddings, social events," Justice Oka pointed out.





"हम चुनाव, शादियों, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए साल भर के प्रतिबंध की बात कर रहे हैं,"
न्यायमूर्ति ओका ने कहा।

- The court gave the **Delhi government** until **November 25** to decide on a **perpetual ban**.
अदालत ने दिल्ली सरकार को 25 नवंबर तक स्थायी प्रतिबंध पर निर्णय लेने का समय दिया।
- **Senior advocate Gopal Sankaranarayanan**, representing a **petitioner**, and **amicus curiae senior advocate Aparajita Singh** argued that the **government** was evading **compliance** with an **apex court order** by blaming a **Hindu festival**.
वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन, जो एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने तर्क दिया कि सरकार हिंदू त्योहार का हवाला देकर उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करने से बच रही है।
- "The **right to live in a pollution-free atmosphere** is a **fundamental right** of every citizen. **No religion encourages** activities that create **pollution**. If **firecrackers** are burst in this way, it affects citizens' **fundamental right to health**," the **Supreme Court** noted in its **order**.
"प्रत्येक नागरिक का प्रदूषण-मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। कोई भी धर्म ऐसी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करता जो प्रदूषण पैदा करती हैं। यदि इस प्रकार पटाखे फोड़े जाते हैं, तो यह नागरिकों के स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है," सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा।
- **No sale in Delhi**: The court ordered a **ban on the sale and manufacture of firecrackers**, including through **online platforms**, in **Delhi**.
दिल्ली में बिक्री नहीं: अदालत ने दिल्ली में ऑनलाइन प्लेटफार्मों सहित पटाखों की बिक्री और निर्माण पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया।
- The **Delhi Police** was instructed to form a **special cell** to **implement** this order, with the **Delhi Police Commissioner** required to submit a **personal affidavit by November 25** outlining steps taken for compliance.
दिल्ली पुलिस को इस आदेश का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ बनाने का निर्देश दिया गया, और दिल्ली पुलिस आयुक्त को 25 नवंबर तक उठाए गए कदमों का व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया।





The LAC agreement, the *détentes* and the questions

GS Paper II: India-China

Two weeks after the surprise announcement of an India-China *détente*, and a summit on the sidelines of the 16th BRICS Summit at Kazan on October 23, 2024 between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping sealed the deal, the exchange of sweets between soldiers of the Indian Army and the People's Liberation Army (PLA) at the Line of Actual Control (LAC) indicated that the two sides are willing to put the bitterness of the past four years behind them. If indeed that is possible, then the two have much to discuss in terms of restoring peace at the border, reversing economic restrictions on each other, allowing investment, visas and direct flights, and boosting trade and other interactions between each other.

No template or clarity

Work to disengage the two armies at Depsang and Demchok has been declared completed, while troop de-escalation and de-induction along the LAC still need to be agreed upon and will require verification on the ground and using satellite images. There is, however, no template of the agreement. Nor has the government given details of the new "patrolling arrangements" it has agreed to. Reports that the PLA has been granted access at Yangtse, the area on the Arunachal Pradesh boundary where it had attempted to transgress in 2022, have also not been explained by the government. Unfortunately, this lack of clarity is now part of a pattern.

From the start, when this daily had reported violent clashes at Pangong Tso on May 5-6, 2020, the government had erroneously maintained that there was no change in earlier troop levels. After the Galwan clashes, again of 2020, that left 20 Indian soldiers dead following brutal hand to hand combat using sticks and cudgels, Mr. Modi's comment on June 19, 2020, that "no one has transgressed India's borders, nor had any Indian border post been taken", raised more questions than answers. The statement, that has never been updated, was followed only by an interview Mr. Modi gave in May 2024 in which he said that the situation was a concern and that he hoped they could resolve the LAC standoff at the earliest. Nevertheless the impression has persisted that Chinese troops have pushed Indian troops further back into Indian territory, denying patrolling rights to soldiers and grazing rights to civilians, and had entrenched themselves in the disputed area with bunkers, helicopter landing pads and tents or settlements. With the buffer zones now created in different areas of disengagement, a full return to status quo ante 2020 is virtually impossible unless the zones are dismantled.

Going forward, it is necessary to answer three basic questions. Are the patrolling arrangements agreed to, new? In which case, will India and China now update past protocols as well as the Border Defence Cooperation Agreement of 2013



Suhasini Haidar

to reflect the reality of a new status quo? How does India avoid its fate after the Doklam agreement of 2017, where after disengagement, Chinese troops doubled down on infrastructure on the Doklam plateau upto the tri-junction area, making a return to their forward positions much easier at a later date? The most perplexing question that is still unanswered and which must be studied further is: why did Chinese troops amass and transgress along the LAC in 2020 at all?

Theories on Chinese actions

While the government has been consistent in stating that it does not know the answer to that question, scholars have propounded at least four theories in the past few years. The first, that this is part of a larger Chinese policy, announced by Mr. Xi in 2014, to control "every inch of territory" belonging to China. This has led to aggressive moves by the Chinese military in several theatres: with Taiwan, with maritime shoals in the South China Sea; Doklam with Bhutan, and on the Tibet-India LAC in Ladakh, Sikkim, Doklam and Arunachal Pradesh. The second, that is a reminder from Beijing that as close as the partnership between India and the United States gets in the maritime sphere, India's continental realities including a 3,500 kilometre boundary with China will always be a primary concern. The third relates to a Chinese pushback against the increased infrastructure construction by India, beginning with the operationalisation of the air strip at Daulat Beg Oldie (DBO) in 2008, to roads, bridges and border villages. China's specific security vulnerabilities over Xinjiang as well as plans to connect Tibet-Xinjiang by a railway line and the G695 highway through Aksai Chin, and the start of a Karakoram-2 Highway to Pakistan-occupied Kashmir are further reasons for this theory. It is another matter that if this was a Chinese goal, it backfired as India has sped up its construction of highways, tunnels and border villages on its side of the LAC more than ever before in the past five years.

While all three theories could, individually or together, account for China's actions, it is the fourth theory that possibly accounts for the timing of the PLA's deliberate moves across four points of the LAC in April-May 2020 – that is, as a reaction to India's moves to reorganise Jammu and Kashmir in August 2019. These were followed by Union Home Minister Amit Shah's assertion in Parliament that India would take back Aksai Chin from Chinese occupation. It should be remembered that in the aftermath of the moves of August 5, 2019, China was the only country to issue two separate statements of protest – one dealing with the change of status quo and United Nations resolutions in Jammu-Kashmir, and the second, in more stern language, dealing with the changes in Ladakh that Beijing called "Chinese territory" and warning India against "any move that may further complicate the boundary

question". Within a week, India's External Affairs Minister S. Jaishankar hot footed to Beijing to explain the inherently "internal" nature of the changes which did not change India's external boundaries or negotiations. He also invited Mr. Xi for the retreat in Mamallapuram, Tamil Nadu, a month later, among the last of 18 formal Modi-Xi meetings in five years, until their meeting this year in Kazan. The third Chinese response, in November 2019, was to the publication of new Indian maps delineating the boundaries, which may well have been the lynchpin for the timing of China's subsequent actions – amassing along the LAC and transgressing into Indian territory as soon as the snows melted along the LAC.

It is therefore significant that the agreement with China last month came after three other *détentes*. The first was the holding of elections in Jammu and Kashmir, which is expected to be followed by the roll-back to Statehood status, as well as possibly a reversal in terms of more powers transferred to the State. The next was the *détente* with Ladakhi protesters led by climate activist Sonam Wangchuk, who ended their mass hunger fast on an assurance by the Home Ministry that a high-powered committee would discuss their demands for Statehood, tribal status, employment guarantees for locals, and Parliament seats for Leh and Ladakh, with a meeting set for December. Finally, there was the opening with Pakistan, through Mr. Jaishankar's visit to Islamabad to attend the Shanghai Cooperation Organization (SCO) conference in October. While no substantive agreements were made, Mr. Jaishankar's presence in person by itself was the message, given that the Modi government has handled other such SCO Ministerial meetings virtually. It remains to be seen whether the next few months will see other openings, including a rollback by Pakistan of trade, rail and road link bans that it implemented in 2019.

Need for government transparency

If there is a larger purpose to restoring sustainable peace and tranquility at the India-China border, then New Delhi must begin by restoring some transparency to its plans for the future of the ultra-sensitive sub-region at its northern peripheries. A thorough enquiry of events at the LAC, and the lessons learnt from China's unexpected transgressions and India's response, are merited. Domestically, it may be time to acknowledge that the "shock and awe" method of surprise announcements has run its course, whether it is in terms of escalation or de-escalation. While a one-party rule hegemonic entity such as China may choose a different path, it behoves a democratically elected government to take its citizens into confidence about moves that have such deep consequences.

suhasini.h@thehindu.co.in

The LAC agreement, the *détentes* and the questions

एलएसी समझौता, तनाव-मुक्ति और प्रश्न

India-China *Détente* and Border Issues

Website: patrioticias.in

Telegram Channel: <https://t.me/patrioticIAS>





भारत-चीन के संबंधों में सुधार और सीमा मुद्दे

- Two weeks after the surprise announcement of an **India-China détente**, a summit between **Prime Minister Narendra Modi** and **Chinese President Xi Jinping** was held on the sidelines of the **16th BRICS Summit** at **Kazan** on **October 23, 2024**, which furthered the détente. भारत-चीन के संबंधों में अप्रत्याशित सुधार की घोषणा के दो सप्ताह बाद, **23 अक्टूबर 2024** को कज़ान में **16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन** के दौरान **प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी** और **चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग** के बीच एक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिससे सुधार को बढ़ावा मिला।
- Following this, soldiers from the **Indian Army** and **People's Liberation Army (PLA)** exchanged sweets at the **Line of Actual Control (LAC)**, symbolizing willingness to overcome the bitterness of the past **four years**. इसके बाद, **भारतीय सेना** और **पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA)** के सैनिकों ने **वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC)** पर मिठाइयों का आदान-प्रदान किया, जो पिछले **चार वर्षों** की कड़वाहट को दूर करने की इच्छा को दर्शाता है।
- If successful, both countries can discuss restoring **peace at the border**, reversing **economic restrictions**, allowing **investments, visas, direct flights**, and improving trade and other interactions. अगर यह सफल होता है, तो दोनों देश **सीमा पर शांति बहाल** करने, **आर्थिक प्रतिबंध हटाने**, **निवेश, वीजा, सीधी उड़ानों** की अनुमति देने, और **व्यापार और अन्य संपर्कों** में सुधार पर चर्चा कर सकते हैं।

No Template or Clarity

कोई स्पष्टता या टेम्पलेट नहीं

- Disengagement of troops at **Depsang** and **Demchok** has been declared completed, but **de-escalation** and **de-induction** still require verification on the ground and through **satellite images**. **देपसांग और डेमचोक** में सैनिकों के हटने की प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन **तनाव कम करना** और **सैनिकों की वापसी** के लिए अभी भी जमीनी स्तर पर और **उपग्रह चित्रों** से सत्यापन की आवश्यकता है।
- However, there is no clear **template** of the agreement, and the government has not detailed the new **patrolling arrangements**. हालांकि, इस समझौते का कोई स्पष्ट **टेम्पलेट** नहीं है और सरकार ने नए **गश्त की व्यवस्थाओं** का विवरण नहीं दिया है।
- Reports suggest that the **PLA** has been granted access to **Yangtse** in **Arunachal Pradesh**, a region where they attempted to transgress in **2022**, but the government has not clarified this. रिपोर्ट्स के अनुसार, **PLA** को **अरुणाचल प्रदेश** के **यांगत्से** क्षेत्र में पहुंच की अनुमति दी गई है, जहां उन्होंने **2022** में **घुसपैठ** का प्रयास किया था, लेकिन सरकार ने इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

Pattern of Lack of Clarity

स्पष्टता की कमी का पैटर्न

- Since the **Pangong Tso** clashes on **May 5-6, 2020**, the government has maintained that troop levels were unchanged, despite reports suggesting otherwise. **5-6 मई 2020** को **पेंगोंग त्सो** में संघर्ष





के बाद से सरकार ने दावा किया है कि सैनिकों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है, हालांकि रिपोर्ट्स इसके विपरीत संकेत देती हैं।

- Following the **Galwan clashes in 2020** that left **20 Indian soldiers** dead, **Prime Minister Modi** stated on **June 19, 2020** that "no one has transgressed India's borders," which raised many questions. **2020 में गलवान संघर्ष** के बाद, जिसमें **20 भारतीय सैनिक** मारे गए थे, **प्रधानमंत्री मोदी** ने **19 जून 2020** को कहा कि "किसी ने भारत की सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया है," जिससे कई सवाल उठे।
- In **May 2024**, Mr. Modi mentioned in an interview that the **LAC standoff** was a concern and hoped it would be resolved soon. **मई 2024** में, श्री मोदी ने एक साक्षात्कार में कहा कि **LAC पर गतिरोध** एक चिंता का विषय है और आशा है कि इसे जल्द ही सुलझाया जाएगा।

New Questions Moving Forward

आगे बढ़ने के नए सवाल

- **Are the new patrolling arrangements different** from the previous ones, and if so, will past protocols and the **Border Defence Cooperation Agreement of 2013** be updated? **क्या नई गश्त व्यवस्था पिछली से अलग है**, और यदि हां, तो क्या पिछली संधियाँ और **2013 का सीमा रक्षा सहयोग समझौता** अपडेट किया जाएगा?
- How can **India** avoid the situation seen after the **Doklam agreement of 2017**, where **Chinese troops** increased infrastructure on the **Doklam plateau**? **भारत कैसे 2017 के डोकलाम समझौते** के बाद की स्थिति से बच सकता है, जब **चीनी सैनिकों** ने **डोकलाम पठार** पर बुनियादी ढांचे को बढ़ा दिया था?
- A critical question that remains unanswered is **why Chinese troops amassed** and transgressed along the **LAC in 2020**. एक महत्वपूर्ण अनुत्तरित प्रश्न यह है कि **2020 में चीनी सैनिकों** ने **LAC** के साथ किस उद्देश्य से एकत्रित होकर अतिक्रमण किया।

Theories on Chinese actions

चीनी कार्यों पर सिद्धांत

- While the government has been consistent in stating that it does not know the answer to that question, scholars have propounded at least four theories in the past few years. सरकार ने लगातार कहा है कि उसे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है, लेकिन विद्वानों ने पिछले कुछ वर्षों में कम से कम चार सिद्धांत पेश किए हैं।
- **The first theory** suggests that this is part of a larger Chinese policy, announced by Mr. Xi in **2014**, to control "every inch of territory" belonging to China. **पहला सिद्धांत** यह बताता है कि यह चीन की एक व्यापक नीति का हिस्सा है, जिसे **2014** में श्री शी ने घोषित किया था, ताकि चीन के हर इंच क्षेत्र पर नियंत्रण किया जा सके।
- This policy has led to aggressive moves by the Chinese military in several theatres: with Taiwan, with maritime shoals in the **South China Sea**; Doklam with Bhutan, and on the Tibet-India LAC in **Ladakh, Sikkim, Doklam, and Arunachal Pradesh**.



इस नीति के कारण चीनी सेना ने कई मोर्चों पर आक्रामक कदम उठाए हैं: ताइवान, दक्षिण चीन सागर में समुद्री चट्टानों पर; भूटान के साथ डोकलाम में, और तिब्बत-भारत LAC पर लद्दाख, सिक्किम, डोकलाम और अरुणाचल प्रदेश में।

- **The second theory** suggests that China is reminding India that despite its close maritime partnership with the United States, India's continental realities, including a **3,500-kilometre boundary** with China, will always be a primary concern.
दूसरा सिद्धांत यह बताता है कि चीन भारत को यह याद दिला रहा है कि अमेरिका के साथ करीबी समुद्री साझेदारी के बावजूद, चीन के साथ **3,500 किलोमीटर की सीमा** सहित भारत की महाद्वीपीय वास्तविकताएँ हमेशा एक प्राथमिक चिंता रहेंगी।
- **The third theory** relates to China's response to India's increased infrastructure development, beginning with the operationalisation of the airstrip at **Daulat Beg Oldie (DBO)** in **2008**, and the construction of roads, bridges, and border villages.

तीसरा सिद्धांत भारत द्वारा बढ़ते आधारभूत संरचना विकास के प्रति चीन की प्रतिक्रिया से संबंधित है, जिसमें **2008 में दौलत बेग ओल्डी (DBO)** हवाई पट्टी का संचालन और सड़कों, पुलों और सीमा गांवों का निर्माण शामिल है।

- China's specific security concerns in **Xinjiang** and its plans to connect Tibet and Xinjiang by railway through **Aksai Chin**, along with the **G695 highway** and **Karakoram-2 Highway** to Pakistan-occupied Kashmir, support this theory.

शिनजियांग में चीन की विशेष सुरक्षा चिंताएँ और **अक्साई चिन** के माध्यम से तिब्बत और शिनजियांग को रेलवे से जोड़ने की योजना, साथ ही **G695 हाईवे** और पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर के लिए **काराकोरम-2 हाईवे** इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं।

- However, if this theory were China's goal, it may have backfired, as India has accelerated its construction of highways, tunnels, and border villages along its side of the LAC more than ever before in the past five years.

हालांकि, अगर यह सिद्धांत चीन का उद्देश्य होता, तो यह उल्टा हो सकता था, क्योंकि भारत ने पिछले पांच वर्षों में LAC के अपने हिस्से पर राजमार्गों, सुरंगों और सीमा गांवों के निर्माण में पहले से अधिक तेजी लाई है।

- While all three theories could individually or collectively explain China's actions, **the fourth theory** possibly accounts for the timing of the PLA's actions across four points of the LAC in **April-May 2020**.

जबकि ये सभी तीन सिद्धांत व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से चीन के कार्यों की व्याख्या कर सकते हैं, **चौथा सिद्धांत** संभवतः **अप्रैल-मई 2020** में LAC के चार बिंदुओं पर PLA की कार्रवाइयों के समय को समझाता है।

- This theory posits that China's actions were a reaction to India's move to reorganise **Jammu and Kashmir** in **August 2019**.

यह सिद्धांत कहता है कि चीन की कार्रवाई **अगस्त 2019** में जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के लिए भारत की चाल पर प्रतिक्रिया थी।

- This reorganization was followed by Union Home Minister **Amit Shah's** statement in Parliament asserting that India would reclaim **Aksai Chin** from Chinese occupation.

इस पुनर्गठन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री **अमित शाह** द्वारा संसद में दिया गया बयान आया, जिसमें कहा गया कि भारत **अक्साई चिन** को चीनी कब्जे से वापस लेगा।





- It should be noted that after the **August 5, 2019** move, China was the only country to issue two separate statements of protest, one on Jammu and Kashmir and the other on Ladakh, calling it “**Chinese territory**” and warning India against actions that could complicate the boundary question.
ध्यान देने वाली बात यह है कि **5 अगस्त 2019** की कार्रवाई के बाद, चीन ने दो अलग-अलग विरोध वक्तव्य जारी किए थे, एक जम्मू-कश्मीर पर और दूसरा लद्दाख पर, इसे “**चीनी क्षेत्र**” कहते हुए और भारत को सीमा प्रश्न को जटिल बनाने वाले किसी भी कदम के खिलाफ चेतावनी दी थी।
- Within a week, India’s External Affairs Minister **S. Jaishankar** traveled to **Beijing** to explain that these changes were internal and did not affect India’s external boundaries.
एक सप्ताह के भीतर, भारत के विदेश मंत्री **एस. जयशंकर बीजिंग** गए ताकि यह समझा सकें कि ये बदलाव आंतरिक हैं और भारत की बाहरी सीमाओं पर कोई प्रभाव नहीं डालते।
- He also invited **Mr. Xi** to the **Mamallapuram retreat** in **Tamil Nadu** a month later, marking one of the last 18 formal **Modi-Xi** meetings before **Kazan** this year.
उन्होंने **तमिलनाडु में मामल्लापुरम रिट्रीट** के लिए **श्री शी** को एक महीने बाद आमंत्रित किया, जो इस साल **कज़ान** में हुई बैठक से पहले **मोदी-शी** की 18 औपचारिक बैठकों में से एक थी।
- The third Chinese reaction came in **November 2019** when India published new maps delineating its boundaries, which may have triggered China’s actions of amassing troops along the LAC and transgressing into Indian territory as soon as the snow melted.
तीसरी चीनी प्रतिक्रिया **नवंबर 2019** में आई जब भारत ने अपनी सीमाओं को दर्शाने वाले नए नक्शे प्रकाशित किए, जिससे संभवतः LAC के साथ चीनी सैनिकों की तैनाती और बर्फ पिघलते ही भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण शुरू हो गया।

Significance of the Agreement with China

चीन के साथ समझौते का महत्व

- It is significant that the agreement with China last month came after three other détentés.
यह महत्वपूर्ण है कि पिछले महीने चीन के साथ समझौता तीन अन्य समझौतों के बाद आया।
- The first was the holding of elections in Jammu and Kashmir, expected to be followed by a rollback to **Statehood status** and possibly more powers transferred to the State.
पहला जम्मू और कश्मीर में चुनाव कराना था, जिसके बाद **राज्य का दर्जा** बहाल करने और संभवतः राज्य को अधिक शक्तियाँ सौंपने की उम्मीद है।
- The next détenté was with **Ladakhi protesters**, led by climate activist **Sonam Wangchuk**, who ended their mass hunger fast after an assurance from the Home Ministry about a **high-powered committee** to discuss their demands.
अगला समझौता **लद्दाखी प्रदर्शनकारियों** के साथ था, जिसका नेतृत्व पर्यावरण कार्यकर्ता **सोनम वांगचुक** ने किया। उन्होंने गृह मंत्रालय की एक **उच्च-स्तरीय समिति** द्वारा उनकी मांगों पर चर्चा के आश्वासन के बाद अपना सामूहिक अनशन समाप्त कर दिया।
- Their demands include **Statehood**, tribal status, employment guarantees for locals, and Parliament seats for **Leh and Ladakh**.





उनकी मांगों में राज्य का दर्जा, जनजातीय स्थिति, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की गारंटी और लेह और लद्दाख के लिए संसद सीटें शामिल हैं।

- The committee is scheduled to meet in **December**.
समिति की बैठक दिसंबर में होने वाली है।
- Finally, there was an opening with **Pakistan**, marked by **Mr. Jaishankar's** visit to Islamabad for the **Shanghai Cooperation Organization (SCO)** conference in **October**.
अंत में, पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की गई, जिसमें अक्टूबर में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सम्मेलन के लिए श्री जयशंकर की इस्लामाबाद यात्रा शामिल थी।
- While no substantive agreements were made, Mr. Jaishankar's in-person presence itself was a message, as the Modi government had previously handled similar SCO meetings virtually.
यद्यपि कोई ठोस समझौते नहीं हुए, लेकिन श्री जयशंकर की व्यक्तिगत उपस्थिति अपने आप में एक संदेश थी, क्योंकि मोदी सरकार ने पहले इसी तरह की एससीओ बैठकों को वर्चुअल रूप से संभाला था।
- It remains to be seen if the coming months will bring further openings, including Pakistan's rollback of trade, rail, and road bans imposed in **2019**.
यह देखना बाकी है कि आने वाले महीनों में आगे कोई और पहल होती है या नहीं, जिसमें पाकिस्तान द्वारा 2019 में लगाए गए व्यापार, रेल और सड़क प्रतिबंधों का हटाया जाना शामिल है।

Need for Government Transparency **सरकार में पारदर्शिता की आवश्यकता**

- If the purpose is to restore sustainable **peace and tranquillity** at the **India-China border**, then New Delhi should bring transparency to its plans for the future of the sensitive sub-region on its northern peripheries.
यदि उद्देश्य भारत-चीन सीमा पर स्थायी शांति और शांति बहाल करना है, तो नई दिल्ली को अपनी उत्तरी सीमाओं के संवेदनशील उपक्षेत्र के भविष्य के लिए अपनी योजनाओं में पारदर्शिता लानी चाहिए।
- A thorough enquiry into events at the **LAC**, and the lessons learned from China's unexpected transgressions and India's response, is necessary.
एलएसी पर हुई घटनाओं और चीन की अप्रत्याशित घुसपैठों तथा भारत की प्रतिक्रिया से मिले सबक की गहन जांच आवश्यक है।
- Domestically, it may be time to acknowledge that the "**shock and awe**" method of surprise announcements has run its course, whether regarding escalation or de-escalation.
घरेलू रूप से, यह समय हो सकता है कि आश्चर्यचकित करने वाली "शॉक और अचंभा" की विधि का समय समाप्त हो चुका है, चाहे वह वृद्धि के संदर्भ में हो या कमी के।
- While a one-party rule hegemonistic entity like **China** may choose a different path, a democratically elected government should take its citizens into confidence about moves with profound consequences.
जबकि चीन जैसी एक-दलीय शासन वाली प्रभुत्वशाली संस्था एक अलग मार्ग चुन सकती है, एक





लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अपने नागरिकों को ऐसे कदमों के बारे में विश्वास में लेना चाहिए जिनके गहरे प्रभाव हो सकते हैं।

Giving shape to India's carbon credit mechanism

GS Paper III: Environment

The Conference of Parties-29, from November 11 to 22, 2024, in Baku, Azerbaijan, is about to shift focus to the heated discussion on the aspect of climate finance again. An essential component of this discussion will be the carbon credits framework and disagreements over it between developed and developing countries. India updated its Nationally Determined Contributions (NDCs) in 2023 to underline, among other things, the establishment of a domestic carbon market as a part of its climate strategy. The Energy Conservation (Amendment) Act of 2022 provided a statutory mandate for such a Carbon Credit Trading Scheme (CCTS). Through this, India aims to align its climate commitments under the Paris Agreement with broader economic goals. Yet, for the market to truly support these objectives, it must be meticulously designed to ensure credibility, efficiency, and fairness. From global experiences, India must incorporate two pivotal lessons in its carbon market framework for long-term success.

Upholding integrity of carbon credits

At the heart of any carbon market lies the integrity of its carbon credits. The global experience has seen the repercussions of inadequate accountability in credit generation, leading to instances of greenwashing. This issue is pronounced in the voluntary carbon market (VCM), where investigations have exposed overstatements of project benefits, especially within the forestry sector. A similar risk is feared in India's voluntary carbon market operationalised under the Green Credit Programme (GCP). The tree plantation guidelines released by the government under the GCP were criticised for perpetuating greenwashing by encouraging non-scientific tree plantation. It is also feared that under the CCTS, projects may fail to ensure "additionality", a critical measure ensuring that emission reductions exceed those of a business-as-usual scenario.

To navigate these challenges, India must enforce rigorous protocols to verify the authenticity of generated carbon credits. A



Shashank Pandey

Research Fellow at the Vidhi Centre for Legal Policy

India's carbon credit mechanism needs to be aligned with international and domestic realities if it is to be effective

proposed national registry would be a robust mechanism to track carbon credits and address potential double-counting issues. Additionally, independent third-party verifiers can play a crucial role in assessing the additionality and permanence of carbon reduction projects. By emulating international best practices from entities such as the IETA or Gold Standard that have greatly emphasised the generation of carbon credits, India can cultivate a high-integrity market, attracting domestic and global investors.

Alignment with global standards

India's carbon market must also harmonise with international carbon trading mechanisms, notably Article 6 of the Paris Agreement. Article 6.2 facilitates countries in achieving their climate objectives through Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMOs), making compliance a critical aspect for participating nations. The Article 6 rulebook, finalised at the COP26 summit in Glasgow, outlines how countries can engage in carbon trading while upholding environmental integrity.

For India, this means incorporating mechanisms to prevent the double counting of credits, a crucial step to maintain the credibility of global emission reduction efforts. India can align its market with domestic and international standards by integrating transparent systems for accounting emissions reductions and carbon credit transfers. Such alignment and a focus on global best practices will enable India to contribute to global emissions reductions while actively safeguarding national interests.

One of the critical aspects is ensuring environmental integrity, specifically under Article 6.2, which establishes a framework for countries to cooperate on climate mitigation efforts through international carbon markets. The World Bank's "Ensuring Environmental Integrity under Article 6 Mechanisms" report emphasised maintaining robust environmental integrity within carbon markets, especially under the Paris Agreement's Article 6 framework. It highlights that carbon markets risk double-counting emissions reductions without stringent safeguards, which

can dilute the credibility of climate commitments. The report stressed that high governance, verification, and accountability standards are necessary to avoid "low-quality" carbon credits from entering the market.

Focus on disclosure

Ensuring transparency is one mechanism to ensure compliance and conformance with such standards. To enhance transparency and uphold environmental integrity within India's carbon credit system, it is imperative to have comprehensive disclosure of project details, including carbon reduction techniques, benchmarks and third-party verification reports, on a centralised, easily accessible platform. Ensuring that projects adhere to stringent additionality criteria guarantees that the credits reflect real, additional emissions reductions. Regular audits are essential for verifying the sustainability of these projects. Oversight by independent auditors approved by the Bureau of Energy Efficiency (BEE) in India is crucial, alongside real-time tracking of credit transactions to boost accountability and provide insights into the type of projects and their environmental impacts.

The Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative (VCMi) framework introduces a tiered system for companies to assess carbon credit claims. This is to ensure the credibility of carbon offset claims, aiming to enhance market transparency. However, implementation faces challenges, especially within India's CCTS initiatives, due to potential transparency issues and the high costs of establishing monitoring, reporting, and verification systems. These costs could deter smaller projects initially.

India's carbon credit mechanism, albeit nascent, demands stringent enforcement and an alignment with international and domestic realities to be effective. By focusing on transparency and integrity, India has the opportunity to not only provide for a more mature carbon market but also to stimulate its climate finance aspirations, paving the way for practical, sustainable development.

Giving shape to India's carbon credit mechanism

भारत के कार्बन क्रेडिट तंत्र को आकार देना

Conference of Parties-29 (COP-29) in Baku, Azerbaijan

बैकू, अज़रबैजान में सम्मेलन के पक्षों का 29वां सम्मेलन (COP-29)

- The Conference of Parties-29, from November 11 to 22, 2024, in Baku, Azerbaijan, is about to shift focus to the heated discussion on the aspect of climate finance again.

Website: patrioticias.in

Telegram Channel: <https://t.me/patrioticIAS>





11 से 22 नवंबर 2024 तक बैकू, अज़रबैजान में सम्मेलन के पक्षों का 29वां सम्मेलन जलवायु वित्त के पहलू पर गरमागरम चर्चा की ओर ध्यान केंद्रित करने वाला है।

- An essential component of this discussion will be the **carbon credits** framework and disagreements over it between **developed** and **developing countries**.
इस चर्चा का एक महत्वपूर्ण घटक **कार्बन क्रेडिट** ढांचा होगा और **विकसित और विकासशील देशों** के बीच इस पर असहमतियाँ होंगी।
- India updated its **Nationally Determined Contributions (NDCs)** in 2023 to underline, among other things, the establishment of a **domestic carbon market** as a part of its **climate strategy**.
भारत ने 2023 में अपनी **राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (NDCs)** को अद्यतन किया, जिसमें अन्य बातों के अलावा, अपनी **जलवायु रणनीति** के तहत **घरेलू कार्बन बाजार** की स्थापना को रेखांकित किया।
- The **Energy Conservation (Amendment) Act of 2022** provided a statutory mandate for such a **Carbon Credit Trading Scheme (CCTS)**.
2022 का **ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम** इस प्रकार के **कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना (CCTS)** के लिए एक कानूनी रूप से अनिवार्य आदेश प्रदान करता है।
- Through this, India aims to align its **climate commitments** under the **Paris Agreement** with broader **economic goals**.
इसके माध्यम से, भारत अपने **जलवायु वचनबद्धताओं** को **पेरिस समझौते** के तहत व्यापक **आर्थिक लक्ष्यों** के साथ संरेखित करने का लक्ष्य रखता है।
- Yet, for the market to truly support these objectives, it must be meticulously designed to ensure **credibility, efficiency, and fairness**.
फिर भी, इस बाजार को इन उद्देश्यों का वास्तविक रूप से समर्थन करने के लिए, इसे **विश्वसनीयता, दक्षता, और निष्पक्षता** सुनिश्चित करने के लिए सटीक रूप से डिज़ाइन किया जाना चाहिए।
- From **global experiences**, India must incorporate two pivotal lessons in its carbon market framework for **long-term success**.
वैश्विक अनुभवों से, भारत को अपने कार्बन बाजार ढांचे में **दीर्घकालिक सफलता** के लिए दो महत्वपूर्ण पाठों को शामिल करना चाहिए।

Upholding integrity of carbon credits

कार्बन क्रेडिट की सत्यता को बनाए रखना

- At the heart of any carbon market lies the **integrity** of its carbon credits.
किसी भी कार्बन बाजार के दिल में इसके **कार्बन क्रेडिट** की **सत्यता** निहित होती है।
- The **global experience** has seen the repercussions of inadequate accountability in credit generation, leading to instances of **greenwashing**.
वैश्विक अनुभव ने क्रेडिट जनरेशन में अपर्याप्त जवाबदेही के परिणामों को देखा है, जिसके कारण **ग्रीनवॉशिंग** के उदाहरण सामने आए हैं।
- This issue is pronounced in the **voluntary carbon market (VCM)**, where investigations have exposed **overstatements** of project benefits, especially within the **forestry sector**.





यह समस्या **स्वैच्छिक कार्बन बाजार (VCM)** में स्पष्ट है, जहां जांचों ने परियोजना लाभों के अतिरंजन को उजागर किया है, विशेष रूप से **वन्य क्षेत्र** में।

- A similar risk is feared in India's **voluntary carbon market** operationalised under the **Green Credit Programme (GCP)**.

भारत के **स्वैच्छिक कार्बन बाजार** में भी इसी प्रकार का जोखिम है, जिसे **ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP)** के तहत कार्यान्वित किया गया है।

- The **tree plantation guidelines** released by the government under the **GCP** were criticised for perpetuating greenwashing by encouraging **non-scientific tree plantation**.

सरकार द्वारा **GCP** के तहत जारी की गई **वृक्षारोपण मार्गदर्शिकाओं** की आलोचना की गई थी, क्योंकि यह **ग्रीनवॉशिंग** को बढ़ावा देती है, विशेष रूप से **गैर-वैज्ञानिक वृक्षारोपण** को प्रोत्साहित करती है।

- It is also feared that under the **CCTS**, projects may fail to ensure "**additionality**", a critical measure ensuring that emission reductions exceed those of a business-as-usual scenario. यह भी आशंका जताई जा रही है कि **CCTS** के तहत परियोजनाएँ "अतिरिक्तता" सुनिश्चित करने में विफल हो सकती हैं, जो एक महत्वपूर्ण मापदंड है, जो यह सुनिश्चित करता है कि उत्सर्जन में कमी सामान्य परिदृश्य से अधिक हो।
- To navigate these challenges, India must enforce **rigorous protocols** to verify the **authenticity** of generated carbon credits.

इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, भारत को उत्पन्न किए गए कार्बन क्रेडिट की **सत्यता** को सत्यापित करने के लिए **कठोर प्रोटोकॉल** लागू करने होंगे।

- A proposed **national registry** would be a robust mechanism to track carbon credits and address potential **double-counting** issues.

एक प्रस्तावित **राष्ट्रीय रजिस्ट्री** कार्बन क्रेडिट को ट्रैक करने और संभावित **डबल-Counting** समस्याओं को संबोधित करने के लिए एक मजबूत तंत्र होगा।

- Additionally, **independent third-party verifiers** can play a crucial role in assessing the **additionality** and **permanence** of carbon reduction projects.

इसके अतिरिक्त, **स्वतंत्र तृतीय-पक्ष सत्यापनकर्ता** कार्बन कमी परियोजनाओं की **अतिरिक्तता** और **स्थायित्व** का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

- By emulating **international best practices** from entities such as the **IETA** or **Gold Standard** that have greatly emphasised the generation of carbon credits, India can cultivate a **high-integrity market**, attracting **domestic** and **global investors**.

IETA या **गोल्ड स्टैंडर्ड** जैसे संस्थाओं से **अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं** को अपनाकर, जिन्होंने कार्बन क्रेडिट के उत्पादन पर जोर दिया है, भारत एक **उच्च-विश्वसनीयता वाला बाजार** विकसित कर सकता है, जो **घरेलू और वैश्विक निवेशकों** को आकर्षित करेगा।

Alignment with global standards

वैश्विक मानकों के साथ संरेखण

- India's carbon market must also harmonise with **international carbon trading mechanisms**, notably **Article 6 of the Paris Agreement**.



भारत के कार्बन बाजार को अंतर्राष्ट्रीय कार्बन व्यापार तंत्रों, विशेष रूप से पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के साथ संरेखित होना चाहिए।

- Article 6.2 facilitates countries in achieving their **climate objectives** through **Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMOs)**, making compliance a critical aspect for participating nations.

अनुच्छेद 6.2 देशों को जलवायु उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्थानांतरित किए गए कमी परिणामों (ITMOs) के माध्यम से, जिससे भाग लेने वाले देशों के लिए अनुपालन एक महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है।

- The **Article 6 rulebook**, finalized at the **COP26 summit** in **Glasgow**, outlines how countries can engage in carbon trading while upholding **environmental integrity**.

अनुच्छेद 6 के नियम पुस्तक में COP26 शिखर सम्मेलन में ग्लासगो में अंतिम रूप दिए गए, यह बताया गया है कि देश कार्बन व्यापार में कैसे भाग ले सकते हैं जबकि पर्यावरणीय सत्यता को बनाए रखते हुए।

Incorporating mechanisms to prevent double counting of credits

क्रेडिट्स की डबल काउंटिंग को रोकने के लिए तंत्र का समावेश

- India must incorporate mechanisms to prevent the **double counting of credits**, a critical step to maintain the credibility of global emission reduction efforts.

भारत को क्रेडिट्स की डबल काउंटिंग को रोकने के लिए तंत्र को समाहित करना होगा, जो वैश्विक उत्सर्जन कमी प्रयासों की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

- Aligning its market with **domestic and international standards** by integrating transparent systems for **accounting emissions reductions** and **carbon credit transfers** will help.

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ अपने बाजार को मिलाकर उत्सर्जन कमी और कार्बन क्रेडिट ट्रांसफर के लिए पारदर्शी प्रणालियाँ एकीकृत करना मदद करेगा।

- This alignment and focus on **global best practices** will enable India to contribute to **global emissions reductions** while safeguarding **national interests**.

यह संरेखण और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करना भारत को वैश्विक उत्सर्जन कमी में योगदान देने में सक्षम करेगा, जबकि राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा।

Ensuring environmental integrity

पर्यावरणीय अखंडता सुनिश्चित करना

- A key aspect is ensuring **environmental integrity**, particularly under **Article 6.2**, which facilitates international cooperation on climate mitigation through carbon markets.

एक प्रमुख पहलू है पर्यावरणीय अखंडता सुनिश्चित करना, विशेष रूप से धारा 6.2 के तहत, जो कार्बन बाजारों के माध्यम से जलवायु शमन पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा प्रदान करता है।

- The **World Bank**'s report stressed that carbon markets risk **double-counting emissions reductions** without robust safeguards.

विश्व बैंक की रिपोर्ट ने यह जोर दिया कि कार्बन बाजारों में उत्सर्जन कमी की डबल काउंटिंग का जोखिम होता है, यदि पर्याप्त सुरक्षा उपाय न हों।





- The report emphasized the need for **high governance, verification, and accountability** standards to prevent **low-quality** carbon credits from entering the market.
रिपोर्ट ने उच्च शासन, सत्यापन, और जवाबदेही मानकों की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि निम्न गुणवत्ता वाले कार्बन क्रेडिट बाजार में प्रवेश न कर सकें।

Focus on disclosure

प्रकटीकरण पर ध्यान केंद्रित करना

- Ensuring transparency is crucial for **compliance** and conformance with the required standards.
पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि आवश्यक मानकों के साथ **अनुपालन** और अनुकूलता सुनिश्चित हो सके।
- To enhance **transparency** and uphold **environmental integrity**, comprehensive **disclosure** of project details, including **carbon reduction techniques** and **third-party verification**, is vital.
पारदर्शिता बढ़ाने और पर्यावरणीय अखंडता बनाए रखने के लिए परियोजना विवरण, जिसमें कार्बन कमी तकनीक और तीसरे पक्ष का सत्यापन शामिल है, का विस्तृत प्रकटीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- Projects should meet stringent **additionality criteria**, ensuring the credits reflect **real, additional emissions reductions**.
परियोजनाओं को कड़े अतिरिक्तता मानकों को पूरा करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि क्रेडिट्स वास्तविक, अतिरिक्त उत्सर्जन कमी को दर्शाते हैं।
- Regular **audits** are essential for verifying project **sustainability**, with oversight by **independent auditors** approved by the **Bureau of Energy Efficiency (BEE)**.
नियमित ऑडिट परियोजना की स्थिरता की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं, जो स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा निगरानी किए जाते हैं, जिन्हें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) द्वारा अनुमोदित किया गया हो।
- Real-time **tracking of credit transactions** will improve accountability and provide insights into project types and environmental impacts.
क्रेडिट लेन-देन की वास्तविक समय में ट्रैकिंग जवाबदेही में सुधार करेगी और परियोजना प्रकारों और पर्यावरणीय प्रभावों पर जानकारी प्रदान करेगी।

Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative (VCMI)

स्वैच्छिक कार्बन बाजार अखंडता पहल (VCMI)

- The **VCMI** framework introduces a **tiered system** for companies to assess **carbon credit claims**, ensuring the credibility of carbon offset claims.
VCMI ढांचा कंपनियों को कार्बन क्रेडिट दावों का मूल्यांकन करने के लिए स्तरीकृत प्रणाली प्रस्तुत करता है, जो कार्बन ऑफसेट दावों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है।
- However, **implementation** faces challenges, especially within India's **CCTS initiatives**, due to potential transparency issues and high costs of establishing **monitoring, reporting, and verification systems**.
हालाँकि, कार्यावयन में चुनौतियाँ हैं, विशेष रूप से भारत की CCTS पहलों के भीतर, क्योंकि संभावित





पारदर्शिता मुद्दों और मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, और सत्यापन प्रणालियों की स्थापना की उच्च लागतों के कारण।

- These costs may initially deter **smaller projects** from entering the market.
यह लागतें प्रारंभ में **छोटे परियोजनाओं** को बाजार में प्रवेश करने से हतोत्साहित कर सकती हैं।

India's Carbon Credit Mechanism

भारत की कार्बन क्रेडिट प्रणाली

- India's carbon credit system, though in its early stages, requires **strict enforcement and alignment** with both domestic and international realities to be effective.
भारत की कार्बन क्रेडिट प्रणाली, हालांकि प्रारंभिक चरणों में है, को प्रभावी होने के लिए **कड़ी प्रवर्तन और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वास्तविकताओं** के साथ **संरेखण** की आवश्यकता है।
- By focusing on **transparency and integrity**, India has the opportunity to develop a more mature **carbon market** and stimulate its **climate finance** ambitions.
पारदर्शिता और **अखंडता** पर ध्यान केंद्रित करके, भारत के पास एक परिपक्व **कार्बन बाजार** विकसित करने और अपनी **जलवायु वित्त महत्वाकांक्षाओं** को प्रेरित करने का अवसर है।
- This will pave the way for **practical, sustainable development** in the future.
यह भविष्य में **व्यावहारिक, स्थायी विकास** का मार्ग प्रशस्त करेगा।





GS Paper II: Caste Survey

Counting right

A caste survey will not automatically mean higher quota for OBCs

Last week's launch of a caste survey in Telangana by the **Congress government** is a step towards fulfilling its 2023 Assembly poll promise. The survey may form the basis for enhancing the quantum of reservation for Backward Classes (BCs), going by the party's election manifesto. **At present, 112 communities under five categories of BCs enjoy a 29% quota in education and employment, including 4% for socially and educationally Muslim BCs.** The survey is being undertaken at a time when demand for such an exercise at the all-India level is growing louder. In Tamil Nadu, an early mover in the area of affirmative action for BCs, political parties have been raising the issue though divided on whether the State or the Centre should conduct the exercise. In poll-bound Maharashtra, the **Opposition Maha Vikas Aghadi** has promised a caste-based census. The **Rashtriya Swayamsevak Sangh** had stated that a caste census undertaken for the welfare of the downtrodden was fine but the BJP is cold to the idea. The Union government had also said that it had no proposal to make caste data of the **Socio Economic and Caste Census 2011** public. In fact, in Karnataka, where most of the work on a socio-economic and educational survey was done about 10 years ago, the survey report has yet to be made public despite the submission of the final report to Chief Minister Siddaramaiah.

The idea of a caste-based survey is being floated as a prelude to the automatic lifting of the Supreme Court's ceiling of 50% in reservation for OBCs, SCs and STs. In June, the Patna High Court struck down two Acts in Bihar, envisaging enhanced quantum in quota for BCs, Extremely BCs, SCs and STs in education and government jobs. The Nitish Kumar government had carried out a caste survey prior to enacting the laws. The High Court had emphasised the principle of adequate representation while striking down the laws. In the case on 10.5% internal quota for Vanniyars within the Most BCs of Tamil Nadu, the Supreme Court had upheld the Madras High Court's conclusion that the reservation to the community under the 2021 Act was based on "antiquated data". Compilation and presentation of data would not mechanically pave the way for any increase in the quantum, let alone breaching the 50% cap. Analysis of features such as poverty, caste, occupation and location of residence should justify any move to increase the quantum. Besides, as in Article 16(4), only those communities inadequately represented in the public services can be given job quota. No political party should create an impression that a caste census will lead to increased OBC reservation. The Centre should also limit the ceiling of annual parental income in determining the creamy layer among OBCs. Else, only the most advanced sections among BCs will continue to corner the benefits of reservation.

Counting right

गिनती सही है

A caste survey will not automatically mean higher quota for OBCs

जाति सर्वेक्षण का मतलब स्वतः ही ओबीसी के लिए अधिक कोटा नहीं होगा

**Caste Survey Launch in Telangana
तेलंगाना में जाति सर्वेक्षण की शुरुआत**

• Last week's launch of a caste survey in Telangana by the Congress government is a step towards fulfilling its **2023 Assembly poll promise.**

पिछले हफ्ते कांग्रेस सरकार द्वारा तेलंगाना में जाति सर्वेक्षण की शुरुआत **2023 विधानसभा चुनाव वादे को पूरा करने की दिशा में एक कदम है।**

• The survey may form the basis for enhancing the quantum of reservation for **Backward Classes (BCs)**, going by the party's election manifesto.

यह सर्वे **Backward Classes (BCs)** के लिए आरक्षण की मात्रा बढ़ाने के आधार के रूप में काम कर सकता है, जैसा कि पार्टी के चुनावी घोषणापत्र में कहा गया है।

• At present, **112 communities** under five categories of BCs enjoy a **29% quota** in education and employment, including **4% for socially and educationally backward Muslim BCs.**

वर्तमान में, **112 समुदायों** को BCs की पांच श्रेणियों के तहत शिक्षा और रोजगार में **29% कोटा** मिलता है, जिसमें **सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े मुस्लिम BCs** के लिए **4%** शामिल हैं।

• The survey is being undertaken at a time when demand for such an exercise at the **all-India level** is growing louder. यह सर्वे उस समय किया जा रहा है जब **अखिल भारतीय स्तर पर इस तरह के अभ्यास की मांग तेज़ हो रही है।**

• In Tamil Nadu, an early mover in the area of affirmative action for BCs, political parties have been raising the issue though divided on whether the State or the Centre should





conduct the exercise.

तमिलनाडु में, जो BCs के लिए सकारात्मक कार्रवाई के क्षेत्र में अग्रणी था, राजनीतिक दल इस मुद्दे को उठा रहे हैं, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह राज्य या केंद्र द्वारा किया जाना चाहिए।

- In poll-bound **Maharashtra**, the Opposition **Maha Vikas Aghadi** has promised a **caste-based census**.

महाराष्ट्र में आगामी चुनावों के मद्देनजर, विपक्षी **महाविकास आघाड़ी** ने **जाति आधारित जनगणना** का वादा किया है।

- The **Rashtriya Swayamsevak Sangh** had stated that a caste census undertaken for the welfare of the downtrodden was fine but the **BJP** is cold to the idea.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा था कि **नीच जातियों** के कल्याण के लिए किया गया जाति जनगणना ठीक था, लेकिन **BJP** इस विचार के प्रति ठंडा है।

- The Union government had also said that it had no proposal to make caste data of the **Socio Economic and Caste Census 2011** public.

केंद्र सरकार ने यह भी कहा था कि उसके पास **सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना 2011** के जाति डेटा को सार्वजनिक करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

- In fact, in **Karnataka**, where most of the work on a socio-economic and educational survey was done about **10 years ago**, the survey report has yet to be made public despite the submission of the final report to Chief Minister **Siddaramaiah**.

वास्तव में, **कर्नाटक** में, जहां **10 साल पहले** एक सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण का अधिकांश कार्य किया गया था, रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है, हालांकि अंतिम रिपोर्ट **मुख्यमंत्री सिद्धारमैया** को सौंप दी गई थी।

- The idea of a caste-based survey is being floated as a prelude to the automatic lifting of the Supreme Court's ceiling of **50%** in reservation for OBCs, SCs, and STs.

जाति आधारित जनगणना का विचार OBCs, SCs, और STs के लिए आरक्षण की **50%** की सीमा को स्वतः हटाने की शुरुआत के रूप में उभारा जा रहा है।

- In **June**, the **Patna High Court** struck down two Acts in **Bihar**, envisaging enhanced quantum in quota for BCs, Extremely BCs, SCs, and STs in education and government jobs.

जून में, **पटना उच्च न्यायालय** ने **बिहार** में दो कानूनों को रद्द कर दिया, जिसमें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में BCs, अत्यधिक BCs, SCs और STs के लिए आरक्षण की मात्रा बढ़ाने का प्रावधान था।

- The **Nitish Kumar government** had carried out a caste survey prior to enacting the laws.

नीतीश कुमार सरकार ने कानून बनाने से पहले जाति सर्वेक्षण कराया था।

- The High Court had emphasised the principle of adequate representation while striking down the laws.

उच्च न्यायालय ने कानूनों को रद्द करते हुए **उचित प्रतिनिधित्व** के सिद्धांत पर बल दिया था।

- In the case on **10.5% internal quota** for **Vanniyars** within the Most BCs of **Tamil Nadu**, the Supreme Court had upheld the **Madras High Court's** conclusion that the reservation to the community under the **2021 Act** was based on “antiquated data”.

तमिलनाडु में **Vanniyars** के लिए **10.5% आंतरिक कोटा** मामले में, **सुप्रीम कोर्ट** ने **मद्रास उच्च न्यायालय** के निष्कर्ष को सही ठहराया कि **2021 अधिनियम** के तहत समुदाय को दी गई आरक्षण “पुराने डेटा” पर आधारित थी।





- Compilation and presentation of data would not mechanically pave the way for any increase in the quantum, let alone breaching the **50% cap**.
डेटा का संकलन और प्रस्तुति स्वचालित रूप से किसी भी वृद्धि के रास्ते नहीं खोलेंगे, न ही **50% सीमा** को पार करने की संभावना होगी।
- Analysis of features such as poverty, caste, occupation, and location of residence should justify any move to increase the quantum.
गरीबी, जाति, पेशा और निवास स्थान जैसी विशेषताओं का विश्लेषण **आरक्षण की मात्रा** बढ़ाने के किसी भी कदम को सही ठहराना चाहिए।
- Besides, as in **Article 16(4)**, only those communities inadequately represented in the public services can be given job quota.
इसके अलावा, जैसे कि **धारा 16(4)** में कहा गया है, केवल उन समुदायों को जिनका सार्वजनिक सेवाओं में **अपर्याप्त प्रतिनिधित्व** है, नौकरी कोटा दिया जा सकता है।
- No political party should create an impression that a caste census will lead to increased **OBC reservation**.
कोई भी राजनीतिक पार्टी यह धारण न बनाए कि जाति जनगणना से **OBC आरक्षण** बढ़ेगा।
- The Centre should also limit the ceiling of annual parental income in determining the **creamy layer** among OBCs.
केंद्र को **OBCs** में **क्रीमि लेयर** के निर्धारण में वार्षिक पैरेंटल आय की सीमा भी निर्धारित करनी चाहिए।
- Else, only the most advanced sections among BCs will continue to corner the benefits of reservation.
अन्यथा, केवल BCs के सबसे उन्नत वर्ग **आरक्षण के लाभ** को प्राप्त करते रहेंगे।





GS Paper II: Effect of developed countries

Political meltdown

Germany seems set for an economic crisis amid political instability

The collapse of German Chancellor Olaf Scholz's coalition in Germany last week has plunged Europe's largest and a recession-affected economy deeper into crisis. The three-way coalition, involving Mr. Scholz's Social Democrats, Greens and pro-market Free Democratic Party, was struggling for the past year to put up a united face amid public differences. As the economic crisis worsened, differences on a recovery also deepened, leading to Chancellor Scholz sacking his Finance Minister, Christian Lindner of the Free Democrats. While the Social Democrats and the Greens supported more borrowing and public spending to modernise and support industry and a shift towards environmental energy, Mr. Lindner advocated lower taxes and austerity measures. After Mr. Lindner's firing, his party colleagues quit the government. Infighting and economic challenges had already turned the government unpopular. All three parties in the coalition lost support in recent months, while the Conservatives and the far-right Alternative for Germany (AfD) saw a surge in opinion polls. Now that he has lost parliamentary majority, Mr. Scholz will have to depend on opposition parties to pass key policy measures, including the budget for 2025, through the Bundestag.

Mr. Scholz has so far resisted calls to face a vote of confidence quickly. Reports are that his plan is to run a minority government for a few more months. The Social Democrats say a collapse of the government at a time of multiple challenges would leave the country rudderless. But Mr. Scholz clinging on to power, heading an unpopular, minority government, is unlikely to resolve any of Germany's critical problems. The continuing war in Ukraine has hurt the German economy, which is set to contract for a second consecutive year. The country has also seen a large influx of migrants in recent years – over six million in a decade – which the far-right AfD has used to trigger panic in society and drum up support for itself. And the return of Donald Trump, who is sceptical of American support for Ukraine and NATO's role in general, is also a concern for Berlin. What Germany has to do is to bring in a decisive shift in its Ukraine policy, focusing on bringing the war to an end at the earliest through talks. And it should also take measures to pump-prime the economy and have policies to address the immigration challenge in a humanitarian fashion. Mr. Scholz, as a lame-duck Chancellor, is unlikely to take any decisive measure. What he can do is to face a vote of confidence immediately and prepare the country for snap elections.

Political meltdown

राजनीतिक मंदी

Germany seems set for an economic crisis amid political instability

राजनीतिक अस्थिरता के बीच जर्मनी आर्थिक संकट की ओर अग्रसर है

Collapse of German Chancellor Olaf Scholz's Coalition

जर्मन चांसलर ओलाफ शोलज़ की गठबंधन सरकार का पतन

- The collapse of German Chancellor Olaf Scholz's coalition last week has plunged Europe's largest and a recession-affected economy deeper into crisis.

जर्मन चांसलर ओलाफ शोलज़ की गठबंधन सरकार के पिछले सप्ताह गिरने से यूरोप की सबसे बड़ी और मंदी से प्रभावित अर्थव्यवस्था और गहरे संकट में चली गई है।

- The three-way coalition, involving Mr. Scholz's Social Democrats, Greens, and pro-market Free Democratic Party, was struggling for the past year to put up a united face amid public differences.

तीन-पक्षीय गठबंधन, जिसमें श्री शोलज़ के सोशल डेमोक्रेट्स, ग्रीन्स और बाजार समर्थक फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी शामिल हैं, पिछले एक साल से सार्वजनिक मतभेदों के बीच एकजुट रहने में संघर्ष कर रहा था।

- As the economic crisis worsened, differences on a recovery also deepened, leading to Chancellor Scholz sacking his Finance Minister, Christian Lindner of the Free Democrats.

जैसे-जैसे आर्थिक संकट बढ़ा, सुधार पर मतभेद भी गहरे हो गए, जिसके परिणामस्वरूप चांसलर शोलज़ ने फ्री डेमोक्रेट्स के वित्त मंत्री, क्रिश्चियन लिंडनर को बर्खास्त कर दिया।





- While the Social Democrats and the Greens supported more **borrowing** and **public spending** to **modernize** and support **industry** and a shift towards **environmental energy**, Mr. Lindner advocated **lower taxes** and **austerity measures**.

जहां सोशल डेमोक्रेट्स और ग्रीन्स ने अधिक उधारी और सार्वजनिक खर्च का समर्थन किया, ताकि उद्योग को आधुनिक बनाया जा सके और पर्यावरणीय ऊर्जा की दिशा में बदलाव हो, वहीं श्री लिंडनर ने कम करों और कटौती उपायों का समर्थन किया।

- After Mr. Lindner's firing, his party colleagues **quit the government**.
श्री लिंडनर की बर्खास्तगी के बाद उनके पार्टी के सहयोगी सरकार से बाहर हो गए।
- **Infighting** and **economic challenges** had already turned the government **unpopular**.
आंतरिक लड़ाई और आर्थिक चुनौतियों ने पहले ही सरकार को अप्रिय बना दिया था।
- All three parties in the coalition lost support in recent months, while the **Conservatives** and the far-right **Alternative for Germany (AfD)** saw a surge in opinion polls.
गठबंधन में तीनों पार्टियों का हाल के महीनों में समर्थन कम हो गया, जबकि कंज़र्वेटिव्स और दूर-दराज की दक्षिणपंथी पार्टी, **अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी (AfD)** ने जनमत सर्वेक्षणों में बढ़त देखी।
- Now that he has lost **parliamentary majority**, Mr. Scholz will have to depend on **opposition parties** to pass key policy measures, including the **budget for 2025**, through the **Bundestag**.
अब जब उन्होंने संसदीय बहुमत खो दिया है, श्री शोलज़ को विपक्षी पार्टियों पर निर्भर रहना होगा 2025 के बजट सहित महत्वपूर्ण नीति उपायों को बंडेस्टाग के माध्यम से पारित करने के लिए।
- Mr. Scholz has so far resisted calls to face a **vote of confidence** quickly.
अब तक श्री शोलज़ ने विश्वास मत का सामना करने के लिए जल्दबाजी से इनकार किया है।
- Reports are that his plan is to run a **minority government** for a few more months.
रिपोर्ट्स हैं कि उनकी योजना कुछ और महीनों तक अल्पमत सरकार चलाने की है।
- The **Social Democrats** say a collapse of the government at a time of multiple challenges would leave the country **rudderless**.
सोशल डेमोक्रेट्स का कहना है कि कई चुनौतियों के समय में सरकार का पतन देश को दिशाहीन कर देगा।
- But Mr. Scholz clinging on to power, heading an **unpopular, minority government**, is unlikely to resolve any of **Germany's critical problems**.
लेकिन श्री शोलज़ का सत्ता पर काबू बनाए रखना, एक अप्रिय, अल्पमत सरकार की अध्यक्षता करना, जर्मनी की महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने की संभावना नहीं है।
- The continuing war in **Ukraine** has hurt the **German economy**, which is set to contract for a **second consecutive year**.
यूक्रेन में जारी युद्ध ने जर्मन अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है, जो दूसरे लगातार वर्ष के लिए सिकुड़ने वाली है।
- The country has also seen a large **influx of migrants** in recent years — over **six million** in a decade — which the far-right **AfD** has used to trigger panic in society and drum up support for itself.
देश ने हाल के वर्षों में एक बड़ी आप्रवासी आवक देखी है — दस वर्षों में छह मिलियन से अधिक — जिसका उपयोग दूर-दराज की दक्षिणपंथी पार्टी **AfD** ने समाज में घबराहट पैदा करने और अपने लिए समर्थन जुटाने के लिए किया है।
- And the return of **Donald Trump**, who is skeptical of **American support for Ukraine** and **NATO's role** in general, is also a concern for Berlin.





और डोनाल्ड ट्रम्प की वापसी, जो यूक्रेन के लिए अमेरिकी समर्थन और नाटो की भूमिका पर संदेह करते हैं, बर्लिन के लिए भी चिंता का विषय है।

- What Germany has to do is to bring in a **decisive shift** in its Ukraine policy, focusing on bringing the war to an end at the earliest through talks.

जर्मनी को जो करना है, वह अपनी यूक्रेन नीति में एक **निर्णायक बदलाव** लाना है, जो युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए वार्ता पर ध्यान केंद्रित करे।

- And it should also take measures to **pump-prime the economy** and have policies to address the **immigration challenge** in a **humanitarian fashion**.

और इसे **अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने** के लिए उपाय करने चाहिए और **आप्रवासन चुनौती** को **मानवतावादी तरीके से** संबोधित करने के लिए नीतियाँ बनानी चाहिए।

- Mr. Scholz, as a **lame-duck Chancellor**, is unlikely to take any decisive measure.
श्री शोलज़, एक **लेम-डक चांसलर** के रूप में, किसी भी **निर्णायक कदम** उठाने की संभावना नहीं है।
- What he can do is to face a **vote of confidence** immediately and prepare the country for **snap elections**.

जो वह कर सकते हैं, वह **तुरंत विश्वास मत** का सामना करना है और देश को **जल्दी चुनाव** के लिए तैयार करना है।



Can AMU finally claim a 'minority' status?

What does Article 30(1) of the Constitution state? Why did the 1967 *Azeez Basha* judgment state that Aligarh Muslim University cannot be considered a minority institution? On what grounds has the 1967 judgment been revoked by the Supreme Court now?

GS Paper II: Article 30

EXPLAINER

Aaratrika Bhaumik

The story so far:

In a narrow 4-3 majority verdict, the Supreme Court on November 8, overturned its 1967 ruling in *S. Azeez Basha versus Union of India*, which had previously served as the basis for denying Aligarh Muslim University (AMU) its minority institution status. The majority verdict was penned by former Chief Justice of India (CJI) D.Y. Chandrachud and endorsed by Justices Sanjiv Khanna, J.B. Pardiwala, and Manoj Misra. Justices Surya Kant, Dipankar Datta and S.C. Sharma dissented.

What is a 'minority institution'?

Article 30(1) of the Constitution guarantees religious and linguistic minorities the fundamental right to establish and manage educational institutions of their choice. Article 30(2) further mandates that the state must ensure "equality of treatment" in granting aid to all educational institutions, regardless of their minority status. Notably, such institutions enjoy greater autonomy than most others. Under Article 15(5), they are exempt from providing reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and may reserve up to 50% of seats for students from their own community. In the landmark *T.M.A. Pai Foundation* (2002) case, the Supreme Court clarified that a 'minority' status should be determined based on the demographic composition of the concerned State, rather than the national population.

What is the background of the case?

In 1875, Muslim reformer and educationist Sir Syed Ahmed Khan established the Muhammadan Anglo-Oriental (MAO) College in Aligarh to offer modern British education rooted in Islamic values to Muslims. In 1920, the Aligarh Muslim University Act (AMU Act) was passed, incorporating MAO College and the Muslim University Association into AMU. Under Section 23 of the Act, only Muslims were permitted to be members of the university's governing body, known as the Court. While the institution primarily catered to Muslims, students from other religious communities were also admitted. In 1951, this mandate for Muslim-only representation on the Court was abolished. A subsequent amendment in 1965 redistributed the Court's powers among other administrative bodies, with provisions allowing the President of India to nominate members to it.

In 1967, the Supreme Court, in *Azeez Basha*, upheld the amendments to the Act, reasoning that AMU was neither established nor administered by the Muslim minority since it had been established through central legislation. This decision sparked widespread protests, ultimately leading to an amendment of the AMU Act in 1981, which officially recognised the university's minority status.

In 2005, the university introduced a policy reserving 50% of seats in its postgraduate medical courses for Muslim students. This was subsequently challenged before the Allahabad High Court which struck it down on the ground that the university did not qualify as a minority institution as per the *Azeez Basha* ruling.

In 2006, a two-judge Bench of the Supreme Court stayed the reservation policy and referred the case to a larger Bench.



Long awaited: The entrance gate of Aligarh Muslim University. WIKIMEDIA COMMONS

In 2019, a three-judge Bench headed by former CJI Ranjan Gogoi referred the *Azeez Basha* decision for reconsideration by a seven-judge Bench.

The matter stayed in limbo till October 2023 when CJI Chandrachud constituted a seven-judge Bench to hear it.

What did the majority rule?

Justice Chandrachud, in an expansive interpretation of Article 30, affirmed that educational institutions established prior to the adoption of the Constitution are equally entitled to the protections granted under Article 30(1). He clarified that statutory enactments conferring legal recognition or status upon such institutions do not compromise their minority character, provided their foundational purpose was "predominantly" aimed at benefiting the minority community.

The majority verdict further emphasised that an institution does not forfeit its minority character simply because its administration is no longer vested with the community. The judges reasoned that founders or the minority community might appoint individuals from outside the community to helm the administrative affairs, particularly if the institution seeks to focus on secular education. "This may be the case for professional colleges which offer specialised courses such as law, medicine, or architecture, where the founders may not possess the knowledge, experience, or insight necessary to manage or administer the institution personally," they added.

Accordingly, the majority overturned the longstanding *Azeez Basha* ruling,

asserting that treating legal formalities for recognition or degree conferral as grounds to nullify an institution's minority status would constitute a breach of fundamental rights. However, Justice Chandrachud clarified that the onus rests on the concerned religious or linguistic minorities to demonstrate that the educational institution was primarily established for the benefit of their community to qualify for protection under Article 30(1). He pointed out that such an assessment of the "brain" behind an institution's creation could be conducted through a comprehensive review of documents, correspondence and historical records.

Dismissing the Centre's contentions, the judges further declared that recognising an institution as one of national importance does not inherently diminish its minority character, as the national and minority attributes are "not at odds with each other nor mutually exclusive." They also refused to assign any weight to either the provision of religious instruction or the prominence of religious buildings, such as the St. Stephen's College church or AMU mosque, in determining an institution's minority status.

What do the dissenting opinions state?

Justice Kant primarily differed from the majority on procedural grounds, arguing that the two-judge Bench in *Anjuman-e-Rahmaniya versus District Inspector of Schools* (1981), which had initially questioned the precedent set by a five-judge Bench in *Azeez Basha*, overstepped its jurisdiction by referring

the matter directly to a seven-judge Bench. He reasoned that this undermined the Chief Justice's authority as the "master of the roster."

While concurring with Justice Kant on procedural impropriety, Justice Datta questioned the legitimacy of AMU's minority status, asserting that conferring such recognition after nearly a century would amount to "historical revisionism." Notably, he critiqued the lack of constructive discussions among the judges on the Bench, revealing that the draft opinions from Justice Chandrachud – later forming the majority judgment – were received late and underwent frequent revisions. In a likely reference to the majority ruling, Justice Datta remarked that judges should refrain from disregarding long-standing precedents in favour of judicial activism.

Justice Sharma too concluded that initial support from a minority community does not automatically grant an institution minority status, particularly if the actual control vests with the government.

What happens next?

A regular Bench, assigned by CJI Sanjiv Khanna, will now reevaluate AMU's minority character based on criteria set by the majority without being constrained by *Azeez Basha*. Meanwhile, the stay on the university's 2005 reservation policy will persist until a final determination is made.

This reassessment is likely to have far-reaching implications for AMU's autonomy, its authority to reserve seats for Muslim students, and the broader discourse on minority rights in India.

THE GIST

Article 30(1) of the Constitution guarantees religious and linguistic minorities the fundamental right to establish and manage educational institutions of their choice.

In 1967, the Supreme Court, in *Azeez Basha*, reasoned that AMU was neither established nor administered by the Muslim minority since it had been established through central legislation.

Justice Chandrachud affirmed that educational institutions established prior to the adoption of the Constitution are equally entitled to the protections granted under Article 30(1). He clarified that statutory enactments conferring legal recognition or status upon such institutions do not compromise their minority character, provided their foundational purpose was "predominantly" aimed at benefiting the minority community. The majority verdict further emphasised that an institution does not forfeit its minority character simply because its administration is no longer vested with the community.





Can AMU finally claim a 'minority' status?

क्या एएमयू अंततः 'अल्पसंख्यक' दर्जे का दावा कर सकता है?

What does Article 30(1) of the Constitution state? Why did the 1967 Azeez Basha judgment state that Aligarh Muslim University cannot be considered a minority institution? On what grounds has the 1967 judgment been revoked by the Supreme Court now?

संविधान का अनुच्छेद 30(1) क्या कहता है? 1967 के अज़ीज़ बाशा फैसले में क्यों कहा गया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता? अब सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर 1967 के फैसले को रद्द कर दिया है?

Supreme Court's Ruling on AMU's Minority Status

एएमयू की अल्पसंख्यक स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

- In a narrow 4-3 majority verdict, the Supreme Court on November 8, overturned its 1967 ruling in *S. Azeez Basha versus Union of India*, which had previously served as the basis for denying Aligarh Muslim University (AMU) its minority institution status.
एक संकीर्ण 4-3 बहुमत फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने 8 नवम्बर, 1967 के निर्णय को पलट दिया, जिसमें एस. अजीज बाशा बनाम भारत संघ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) को अल्पसंख्यक संस्था की स्थिति से वंचित करने का आधार था।
- The majority verdict was penned by former Chief Justice of India (CJI) D.Y. Chandrachud and endorsed by Justices Sanjiv Khanna, J.B. Pardiwala, and Manoj Misra.
बहुमत फैसले को पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने लिखा और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, जे.बी. परदीवाला और मनोज मिश्र ने इसका समर्थन किया।
- Justices Surya Kant, Dipankar Datta and S.C. Sharma dissented.
न्यायमूर्ति सूर्या कांत, दीपांकर दत्ता और एस.सी. शर्मा ने असहमतिपूर्ण निर्णय दिया।

What is a 'minority institution'?

'अल्पसंख्यक संस्था' क्या है?

- Article 30(1) of the Constitution guarantees religious and linguistic minorities the fundamental right to establish and manage educational institutions of their choice.
संविधान का अनुच्छेद 30(1) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है।





- **Article 30(2)** further mandates that the state must ensure “**equality of treatment**” in granting aid to all educational institutions, regardless of their minority status.
अनुच्छेद 30(2) और यह अनिवार्य करता है कि राज्य सभी शैक्षिक संस्थाओं को, चाहे उनकी **अल्पसंख्यक स्थिति** कुछ भी हो, “**समान उपचार**” सुनिश्चित करें।
- Notably, such institutions enjoy greater **autonomy** than most others.
विशेष रूप से, ऐसी संस्थाओं को अन्य अधिकांश संस्थाओं से अधिक **स्वायत्तता** प्राप्त होती है।
- Under **Article 15(5)**, they are exempt from providing **reservations** for **Scheduled Castes** and **Scheduled Tribes**, and may reserve up to **50%** of seats for students from their own community.
अनुच्छेद 15(5) के तहत, इन्हें **अनुसूचित जातियों** और **अनुसूचित जनजातियों** के लिए **आरक्षण** देने से छूट प्राप्त है, और ये अपनी **समुदाय** के छात्रों के लिए सीटों का **50% तक आरक्षित** कर सकते हैं।
- In the landmark **T.M.A. Pai Foundation (2002)** case, the Supreme Court clarified that a ‘**minority**’ status should be determined based on the **demographic composition** of the concerned State, rather than the **national population**.
ऐतिहासिक **टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन (2002)** मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ‘**अल्पसंख्यक**’ स्थिति का निर्धारण संबंधित राज्य की **जनसांख्यिकीय संरचना** के आधार पर होना चाहिए, न कि **राष्ट्रीय जनसंख्या** के आधार पर।

What is the background of the case?

मामले का पृष्ठभूमि क्या है?

- In **1875**, Muslim reformer and educationist **Sir Syed Ahmed Khan** established the **Muhammadan Anglo-Oriental (MAO) College** in **Aligarh** to offer modern **British education** rooted in **Islamic values** to Muslims.
1875 में, मुस्लिम सुधारक और शिक्षाविद **सिर सैयद अहमद खान** ने **अलीगढ़** में **मुहम्मदन एंग्लो-ओरिएंटल (MAO) कॉलेज** की स्थापना की, ताकि मुसलमानों को **इस्लामी मूल्यों** पर आधारित **आधुनिक ब्रिटिश शिक्षा** दी जा सके।
- In **1920**, the **Aligarh Muslim University Act (AMU Act)** was passed, incorporating **MAO College** and the **Muslim University Association** into **AMU**.
1920 में, **अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम (AMU अधिनियम)** पारित हुआ, जिसमें **MAO कॉलेज** और **मुस्लिम विश्वविद्यालय संघ** को **एमयू** में शामिल किया गया।
- Under **Section 23** of the Act, only **Muslims** were permitted to be members of the university’s governing body, known as the **Court**.
अधिनियम की धारा 23 के तहत, केवल **मुसलमानों** को विश्वविद्यालय के शासी निकाय, जिसे **कोर्ट** कहा जाता था, का सदस्य बनने की अनुमति थी।
- While the institution primarily catered to **Muslims**, students from other religious communities were also admitted.
जबकि यह संस्था मुख्य रूप से **मुसलमानों** की सेवा करती थी, अन्य **धार्मिक समुदायों** के छात्रों को भी प्रवेश दिया जाता था।
- In **1951**, this mandate for **Muslim-only representation** on the Court was abolished.
1951 में, कोर्ट में केवल **मुसलमानों का प्रतिनिधित्व** की यह अनिवार्यता समाप्त कर दी गई।
- A subsequent amendment in **1965** redistributed the Court’s powers among other administrative bodies, with provisions allowing the **President of India** to nominate members to it.





1965 में किए गए एक संशोधन ने कोर्ट की शक्तियों को अन्य प्रशासनिक निकायों के बीच पुनर्वितरित कर दिया, जिसमें भारत के राष्ट्रपति को इसके सदस्य नामित करने की अनुमति देने वाले प्रावधान थे।

Overturning of the 1967 Azeez Basha Ruling

1967 अजीज़ बाशा फैसले को पलटना

- In 1967, the Supreme Court, in **Azeez Basha**, upheld the amendments to the Act, reasoning that **AMU** was neither established nor administered by the Muslim minority since it had been established through **central legislation**.
1967 में, सुप्रीम कोर्ट ने **अजीज़ बाशा** मामले में कानून में किए गए संशोधनों को सही ठहराया, यह तर्क देते हुए कि **एएमयू** को मुस्लिम अल्पसंख्यक ने स्थापित या संचालित नहीं किया था क्योंकि इसे **केंद्रीय कानून** के तहत स्थापित किया गया था।
- This decision sparked **widespread protests**, ultimately leading to an amendment of the **AMU Act in 1981**, which officially recognised the university's minority status.
इस फैसले ने **व्यापक विरोध प्रदर्शन** को जन्म दिया, जिसके परिणामस्वरूप **1981 में एएमयू अधिनियम में संशोधन** हुआ, जिसने विश्वविद्यालय की अल्पसंख्यक स्थिति को आधिकारिक रूप से मान्यता दी।
- In 2005, the university introduced a policy reserving **50% of seats** in its postgraduate medical courses for **Muslim students**.
2005 में, विश्वविद्यालय ने अपनी पोस्टग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में **50% सीटों** की आरक्षण नीति लागू की, जो **मुस्लिम छात्रों** के लिए थी।
- This was subsequently challenged before the **Allahabad High Court** which struck it down on the ground that the university did not qualify as a minority institution as per the **Azeez Basha ruling**.
इसे बाद में **इलाहाबाद उच्च न्यायालय** में चुनौती दी गई, जिसने इसे खारिज कर दिया क्योंकि विश्वविद्यालय **अजीज़ बाशा फैसले** के अनुसार अल्पसंख्यक संस्था के रूप में योग्य नहीं था।
- In 2006, a two-judge Bench of the **Supreme Court** stayed the reservation policy and referred the case to a larger Bench.
2006 में, **सुप्रीम कोर्ट** के दो न्यायाधीशों की पीठ ने आरक्षण नीति पर रोक लगाई और मामले को बड़ी पीठ के पास भेजा।
- In 2019, a three-judge Bench headed by former **CJI Ranjan Gogoi** referred the **Azeez Basha decision** for reconsideration by a **seven-judge Bench**.
2019 में, सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ, जिसकी अध्यक्षता पूर्व **CJI रंजन गोगोई** ने की, ने **अजीज़ बाशा फैसले** को सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा।
- The matter stayed in limbo till **October 2023** when **CJI Chandrachud** constituted a **seven-judge Bench** to hear it.
मामला **अक्टूबर 2023** तक उलझा रहा, जब **CJI चंद्रचूड़** ने इसे सुनने के लिए सात न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया।

What did the majority rule?

बहुमत का क्या निर्णय था?

Website: patrioticias.in

Telegram Channel: <https://t.me/patrioticIAS>



- **Justice Chandrachud**, in an expansive interpretation of **Article 30**, affirmed that educational institutions established prior to the adoption of the **Constitution** are equally entitled to the protections granted under **Article 30(1)**.
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने धारा 30 की विस्तृत व्याख्या में यह पुष्टि की कि संविधान अपनाने से पूर्व स्थापित शैक्षिक संस्थान भी धारा 30(1) के तहत प्रदान की गई सुरक्षा के हकदार हैं।
- He clarified that statutory enactments conferring **legal recognition** or **status** upon such institutions do not compromise their minority character, provided their foundational purpose was **“predominantly” aimed at benefiting the minority community**.
उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे संस्थानों को कानूनी मान्यता या स्थिति देने वाले कानूनी प्रावधान उनके अल्पसंख्यक चरित्र को क्षति नहीं पहुँचाते, बशर्ते उनका आधिकारिक उद्देश्य "मुख्य रूप से" अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ के लिए हो।
- The majority verdict further emphasised that an institution does not forfeit its minority character simply because its administration is no longer vested with the community.
बहुमत के फैसले में यह भी कहा गया कि यदि संस्थान का प्रशासन अब समुदाय के पास नहीं है, तो भी यह अपने अल्पसंख्यक चरित्र को खो नहीं सकता।
- The judges reasoned that founders or the minority community might appoint individuals from outside the community to helm the administrative affairs, particularly if the institution seeks to focus on **secular education**.
न्यायाधीशों ने तर्क दिया कि संस्थापक या अल्पसंख्यक समुदाय संस्थान के प्रशासनिक मामलों का संचालन करने के लिए समुदाय के बाहर से व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते हैं, विशेषकर यदि संस्थान धार्मिक शिक्षा से हटकर धार्मिक शिक्षा से अलग धार्मिक शिक्षा से हटकर धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है।
- Accordingly, the majority overturned the longstanding **Azeez Basha ruling**, asserting that treating legal formalities for recognition or degree conferral as grounds to nullify an institution's minority status would constitute a **breach of fundamental rights**.
इसके अनुसार, बहुमत ने लंबे समय से चली आ रही अजीज़ बाशा फैसले को पलटते हुए यह कहा कि मान्यता या डिग्री देने के लिए कानूनी औपचारिकताओं को संस्थान की अल्पसंख्यक स्थिति को रद्द करने का आधार बनाना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।
- However, **Justice Chandrachud** clarified that the onus rests on the concerned **religious or linguistic minorities** to demonstrate that the educational institution was primarily established for the benefit of their community to qualify for protection under **Article 30(1)**.
हालांकि, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया कि जिम्मेदारी संबंधित धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों पर है कि वे यह दिखा सकें कि शैक्षिक संस्था मुख्य रूप से उनके समुदाय के लाभ के लिए स्थापित की गई थी ताकि इसे धारा 30(1) के तहत सुरक्षा मिल सके।
- He pointed out that such an assessment of the “brain” behind an institution's creation could be conducted through a comprehensive review of **documents, correspondence, and historical records**.
उन्होंने यह भी बताया कि संस्था के निर्माण के पीछे के "मस्तिष्क" का मूल्यांकन दस्तावेजों, पत्राचार, और ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स की विस्तृत समीक्षा के माध्यम से किया जा सकता है।





Dismissing the Centre's contentions

केंद्र की दलीलों को खारिज करना

- The judges further declared that recognising an institution as one of **national importance** does not inherently diminish its **minority character**, as the **national** and **minority attributes** are “**not at odds with each other nor mutually exclusive**”.
- न्यायाधीशों ने आगे यह घोषित किया कि किसी संस्थान को **राष्ट्रीय महत्व** के रूप में मान्यता देने से स्वाभाविक रूप से इसकी **अल्पसंख्यक स्थिति** में कमी नहीं आती, क्योंकि **राष्ट्रीय और अल्पसंख्यक गुण** “**एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं और न ही एक-दूसरे से बंधे हुए हैं।**”
- They also refused to assign any weight to either the provision of **religious instruction** or the prominence of **religious buildings**, such as the **St. Stephen's College church** or **AMU mosque**, in determining an institution's **minority status**.
- उन्होंने **धार्मिक शिक्षा** या **धार्मिक भवनों** की महत्वपूर्णता, जैसे **सेंट स्टीफंस कॉलेज का चर्च** या **एएमयू मस्जिद**, को किसी संस्थान की **अल्पसंख्यक स्थिति** निर्धारित करने में कोई महत्व देने से इंकार कर दिया।

What do the dissenting opinions state?

विपक्षी विचार क्या कहते हैं?

- Justice Kant** primarily differed from the majority on **procedural grounds**, arguing that the **two-judge Bench** in **Anjuman-e-Rahmaniya versus District Inspector of Schools (1981)**, which had initially questioned the precedent set by a five-judge Bench in **Azeez Basha**, overstepped its jurisdiction by referring the matter directly to a **seven-judge Bench**.
- न्यायमूर्ति कांत ने मुख्य रूप से **प्रक्रियात्मक आधारों** पर बहुमत से असहमत हुए, यह तर्क देते हुए कि **अंजुमन-ए-रहमानिया बनाम जिला निरीक्षक स्कूल (1981)** में दो न्यायाधीशों की पीठ, जिसने **अजीज़ बाशा** में पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा स्थापित नजीर पर पहले सवाल उठाया था, उसने मामले को सीधे सात न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजकर अपनी **क्षेत्राधिकार** से बाहर कदम रखा।
- He reasoned that this undermined the **Chief Justice's authority** as the “**master of the roster**”. उन्होंने यह तर्क दिया कि इससे **मुख्य न्यायाधीश के अधिकार** को कमजोर किया गया, जो कि “**रजिस्ट्री के प्रमुख**” हैं।
- While concurring with Justice Kant on procedural impropriety, **Justice Datta** questioned the **legitimacy** of **AMU's minority status**, asserting that conferring such recognition after nearly a **century** would amount to “**historical revisionism**”.
- जबकि न्यायमूर्ति दत्ता ने प्रक्रियात्मक अनुचितता पर न्यायमूर्ति कांत से सहमति व्यक्त की, उन्होंने **एएमयू की अल्पसंख्यक स्थिति की वैधता** पर सवाल उठाया, यह कहते हुए कि लगभग एक सदी बाद ऐसी मान्यता देना “**ऐतिहासिक पुनरावलोकन**” के बराबर होगा।
- Notably, he critiqued the lack of **constructive discussions** among the judges on the Bench, revealing that the **draft opinions** from **Justice Chandrachud** — later forming the majority judgment — were received late and underwent **frequent revisions**.
- विशेष रूप से, उन्होंने पीठ के न्यायाधीशों के बीच **निर्माणात्मक चर्चाओं** की कमी पर आलोचना



की, यह खुलासा करते हुए कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के मसौदा विचार — जो बाद में बहुमत के फैसले के रूप में परिणत हुए — देर से प्राप्त हुए और बार-बार संशोधन किए गए।

- In a likely reference to the majority ruling, **Justice Datta** remarked that judges should refrain from disregarding **long-standing precedents** in favour of **judicial activism**.

न्यायमूर्ति दत्ता ने संभवतः बहुमत के फैसले का संदर्भ देते हुए टिप्पणी की कि न्यायाधीशों को दीर्घकालिक नज़ीरों को नज़रअंदाज़ करके न्यायिक सक्रियता के पक्ष में निर्णय लेने से बचना चाहिए।

- **Justice Sharma** too concluded that **initial support** from a **minority community** does not automatically grant an institution **minority status**, particularly if the actual control vests with the **government**.

न्यायमूर्ति शर्मा ने भी यह निष्कर्ष निकाला कि अल्पसंख्यक समुदाय से प्रारंभिक समर्थन संस्थान को स्वचालित रूप से अल्पसंख्यक स्थिति नहीं देता, विशेष रूप से यदि वास्तविक नियंत्रण सरकार के पास हो।

What happens next?

आगे क्या होगा?

- A **regular Bench**, assigned by **CJI Sanjiv Khanna**, will now reevaluate AMU's **minority character** based on criteria set by the majority without being constrained by **Azeez Basha**.

सीजेआई संजीव खन्ना द्वारा नियुक्त एक सामान्य पीठ अब एएमयू की अल्पसंख्यक स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करेगी, जो बहुमत द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर, अजीज़ बाशा द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से मुक्त होकर।

- Meanwhile, the **stay** on the university's **2005 reservation policy** will persist until a final determination is made.

इस बीच, विश्वविद्यालय की **2005 आरक्षण नीति** पर रोक तब तक जारी रहेगी जब तक एक अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता।

- This reassessment is likely to have **far-reaching implications** for AMU's **autonomy**, its **authority** to reserve seats for **Muslim students**, and the broader discourse on **minority rights** in India.

इस पुनर्मूल्यांकन का एएमयू की स्वायत्तता, मुस्लिम छात्रों के लिए सीटों के आरक्षण के अधिकार, और भारत में अल्पसंख्यक अधिकारों पर व्यापक चर्चा पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना है।



CAJHEE

The underbelly of Europe's digital euro

The ECB has presented this central bank digital currency, the digital euro, as a new, better alternative for citizens: free, anonymous, and reliable. But this does not convey its actual purpose

GS Paper III: Digital Currency
PETER SCHADT

The European Central Bank (ECB) has been working on a digital currency for some time now; its "preparation phase" commenced in November 2023. This currency is meant to be the government's alternative to existing cashless options such as credit cards, apps, cryptocurrencies, and bank transfers. People can use the digital euro to pay directly from a digital wallet, on a smartphone or computer, without involving a bank or payment gateway. Depending on the end device, the money can be transferred via Bluetooth, a browser extension or a smartphone contact.

The digital euro differs from other types of digital payment options because the ECB issues it directly. Indeed, this central bank digital currency is expected to be an infrastructure that the ECB manages, making it possible to process national and international payments between citizens and companies quickly and cost-effectively. It will also be used for micro payments, which are currently disproportionately expensive thanks to banks' and payment-service providers' conventional cost structures. The cost-neutral digital euro effectively allows for new business models. The ECB has thus presented this as a new, better alternative for citizens: free, anonymous, reliable. But this is not the truth about the purpose of digital currency.


The decisive difference

Anyone who buys with cash has abstract wealth in the form of printed paper that changes hands. With paper money, the seller holds a state guarantee that the bill of exchange also counts as such wealth. According to Karl Marx, this money, which is "the universal substance of existence for all, and at the same time the common product of all", is the "real commonwealth" of capitalist society. In this practically validated commonwealth, money is not an aid to production but its ultimate purpose: things are only produced if and insofar as they prove their worth in bringing money-value wealth into existence.

In such a society, in which buying and selling are not marginal phenomena but the form of its general metabolism, a temporary lack of money shouldn't bring all social transactions to a grinding halt. Accordingly, banks have been granting loans long before there was digital access to personal accounts. What used to be the promissory bill is now a number in an app on your phone.

Anyone who pays by digital bank transfer, PayPal, etc. is already moving away from abstract wealth in the form of cash and towards digital certificates. PayPal therefore guarantees the seller that the buyer's bank will provide her with the money to pay for the product.

This is the decisive difference from the digital euro: it will not be used to digitally exchange debt claims between different financial service providers that are intermediaries between buyers and sellers. Instead, it is a digital version of legally valid cash. In November 2023, the EU Commission clarified the digital euro will be open to all citizens and won't be



ISTOCKPHOTO

limited to settling bills of exchange in interbank transactions.

Consolidation of private property

On the one hand, the digital euro is nothing but a collection of zeros and ones, bits and bytes, like the characters on our banking apps. On the other, we shouldn't be fooled: this similarity doesn't alter the fundamental difference in the political economy of the digital euro and debt to the bank. In contrast to the digital book money of the banks, the new currency is just cash in a technically new form and thus introduces the possibility

of direct payment in the digital space.

This emancipates the sphere of circulation on the internet from financial service providers and allows direct transactions between users.

There are also technical consequences. While payment transactions with debt relationships to banks or financial service providers such as PayPal can only be processed via the internet, the digital euro also allows offline payments.

As offline payments are supposed to be anonymous, public opinion often emphasises that the new digital currency "can keep up with the anonymity of

cash", as e-euro expert Tobias Weidemann says. Anonymity is certainly possible with the right technical design but it can't be the principal motivation to develop the digital euro.

The list of good reasons for the digital euro are derived from the justifications for money 1.0. The euro's functional definition, as a tool for private owners who may find it difficult to sell their goods or buy others' without money, is repeated with digital money: "It would be just as practical at flea markets or in classified ads as it would be among friends when they are settling accounts for a joint undertaking," per Mr. Weidemann.

In each case, private property is first assumed and money is then presented as practical so that its circulation is guaranteed. This is a circular argument: money as abstract wealth is nothing other than the objectification of private property in pocket size. Money is not only practical but practically necessary in a society in which everything is subject to the service of property.

The ECB presents the advantages of the new currency in three steps. The first headline claims "money is evolving". This is of course a lie with which the ECB simply claims its monetary policy ambitions as an intrinsic necessity of modern currencies and thus sells it as a necessary evolutionary stage. This is also advertising in the spirit of justification: one's own action is the midwife of an evolution that is coming, midwife or not.

It follows this with the well-known reinterpretation of money as a technical achievement, which in its digital version would do more to "make life easier", a practical experience that probably only really applies to those who don't only depend on money in principle to live but also have enough of it. But it is precisely these people who are at stake when smart contracts are to be concluded with the digital euro.

Contribution to Europe's sovereignty

The ECB's move is to strengthen the home of the euro through its digital variant. This is the imperialist twist: technical emancipation from financial service providers that are not headquartered in the EU and threaten to dominate digital payment options. The ECB claims a "digital euro would ... contribute to the competitiveness and resilience of our payments landscape vis-à-vis payment service providers from non-European countries."

Herein lies the rub: because it is not Europe's own financial service providers that have prevailed as a digital payment alternative in the competition between financial capitalists, the EU wants to use a state alternative to prevent the digital circulation sphere from becoming dependent on U.S. capital.

But the European Union's claim is not limited to this defensive prevention of foreign influence. Because the digital euro would be one of the first currencies available as a virtual means of payment, the EU hopes to destroy some of the business of foreign competitors as well. This strengthening of the euro, on its way to becoming world money used to do business everywhere in the digital sphere, is its political-economic claim.

It is better not to confuse this competition between the leading imperialist nations for a globally recognised currency with one's own interest in shopping more easily on the internet. In this respect, those who understand the digital euro as a simplification of their lives and those who fear the "transparent consumer" are both wrong. It's simply not about the effects of the currency on citizens.

Peter Schadt is union secretary, DGB Region Stuttgart, and teaches at the University of Stuttgart.





The underbelly of Europe's digital euro

यूरोप के डिजिटल यूरो का अंडरबेली

The ECB has presented this central bank digital currency, the digital euro, as a new, better alternative for citizens: free, anonymous, and reliable. But this does not convey its actual purpose

ईसीबी ने इस केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, डिजिटल यूरो को नागरिकों के लिए एक नए, बेहतर विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है: मुफ्त, गुमनाम और विश्वसनीय। लेकिन यह इसका वास्तविक उद्देश्य नहीं बताता है

Digital Euro and its Development

डिजिटल यूरो और उसका विकास

- The **European Central Bank (ECB)** has been working on a digital currency for some time now; its “preparation phase” commenced in **November 2023**.
यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ECB) कुछ समय से एक डिजिटल मुद्रा पर काम कर रहा है; इसका "तैयारी चरण" नवंबर 2023 में शुरू हुआ।
- This currency is meant to be the government's alternative to existing **cashless options** such as **credit cards, apps, cryptocurrencies, and bank transfers**.
यह मुद्रा सरकार का वैकल्पिक विकल्प है, जो मौजूदा बिना नकद विकल्पों जैसे क्रेडिट कार्ड, ऐप्स, क्रिप्टोक्यूरेंसी और बैंक ट्रांसफर का स्थान लेगी।
- People can use the **digital euro** to pay directly from a **digital wallet**, on a **smartphone** or **computer**, without involving a **bank** or **payment gateway**.
लोग डिजिटल यूरो का उपयोग डिजिटल वॉलेट से सीधे भुगतान करने के लिए कर सकते हैं, स्मार्टफोन या कंप्यूटर पर, बिना किसी बैंक या भुगतान गेटवे के शामिल किए।
- Depending on the end device, the money can be transferred via **Bluetooth**, a **browser extension** or a **smartphone contact**.
अंतिम उपकरण के आधार पर, पैसा ब्लूटूथ, ब्राउज़र एक्सटेंशन या स्मार्टफोन संपर्क के माध्यम से स्थानांतरित किया जा सकता है।
- The **digital euro** differs from other types of digital payment options because the **ECB** issues it directly.
डिजिटल यूरो अन्य प्रकार के डिजिटल भुगतान विकल्पों से अलग है क्योंकि ECB इसे सीधे जारी करता है।
- This **central bank digital currency** is expected to be an **infrastructure** that the **ECB** manages, making it possible to process **national and international payments** between **citizens** and **companies** quickly and **cost-effectively**.
यह केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा एक बुनियादी ढांचा बनने की उम्मीद है, जिसे ECB प्रबंधित करता है,





जिससे नागरिकों और कंपनियों के बीच राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय भुगतान को जल्दी और लागत प्रभावी तरीके से संसाधित किया जा सके।

- It will also be used for **micro payments**, which are currently disproportionately expensive thanks to banks' and payment-service providers' conventional cost structures.
इसे सूक्ष्म भुगतान के लिए भी उपयोग किया जाएगा, जो वर्तमान में बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं की पारंपरिक लागत संरचनाओं के कारण असमान रूप से महंगे हैं।
- The **cost-neutral digital euro** effectively allows for **new business models**.
लागत-तटस्थ डिजिटल यूरो प्रभावी रूप से नए व्यापार मॉडल की अनुमति देता है।
- The **ECB** has thus presented this as a new, better alternative for citizens: **free, anonymous, reliable**.
इस प्रकार, ECB ने इसे नागरिकों के लिए एक नया, बेहतर विकल्प प्रस्तुत किया है: **मुफ्त, गुमनाम, और विश्वसनीय**।
- But this is not the truth about the purpose of digital currency.
लेकिन यह डिजिटल मुद्रा के उद्देश्य के बारे में सच नहीं है।

The Decisive Difference

निर्णायक अंतर

- Anyone who buys with **cash** has abstract wealth in the form of printed paper that changes hands. जो कोई नकद में खरीदारी करता है, उसके पास मुद्रित कागज के रूप में अमूर्त संपत्ति होती है जो हाथ बदलती है।
- With **paper money**, the seller holds a **state guarantee** that the **bill of exchange** also counts as such wealth.
कागजी मुद्रा के साथ, विक्रेता राज्य की गारंटी रखता है कि विनिमय पत्र भी ऐसी संपत्ति के रूप में गिना जाता है।
- According to **Karl Marx**, this money, which is "the universal substance of existence for all, and at the same time the common product of all", is the "**real commonwealth**" of capitalist society.
कार्ल मार्क्स के अनुसार, यह पैसा, जो "सभी के लिए अस्तित्व की सार्वभौमिक वस्तु है, और साथ ही सभी का सामान्य उत्पाद है", पूंजीवादी समाज का "वास्तविक सामान्य संपत्ति" है।
- In this practically validated **commonwealth**, money is not an aid to production but its ultimate purpose: things are only produced if and insofar as they prove their worth in bringing money-value wealth into existence.
इस व्यावहारिक रूप से प्रमाणित सामान्य संपत्ति में, पैसा उत्पादन की मदद नहीं है बल्कि इसका अंतिम उद्देश्य है: वस्तुएं तभी उत्पादित होती हैं, यदि और जब तक वे धन-मूल्य संपत्ति को अस्तित्व में लाने में अपनी कीमत साबित करती हैं।
- In such a society, in which buying and selling are not marginal phenomena but the form of its general metabolism, a temporary lack of money shouldn't bring all social transactions to a grinding halt.
ऐसे समाज में, जिसमें खरीद और बिक्री हाशिये की घटनाएं नहीं हैं बल्कि इसके सामान्य चयापचय का रूप हैं, पैसे की अस्थायी कमी को सभी सामाजिक लेन-देन को रोकना नहीं चाहिए।





- Accordingly, **banks** have been granting loans long before there was digital access to personal accounts.
इस प्रकार, बैंक व्यक्तिगत खातों तक डिजिटल पहुंच से पहले ही लोन प्रदान कर रहे थे।
- What used to be the **promissory bill** is now a number in an **app** on your phone.
जो कभी वचनपत्र हुआ करता था, अब वह आपके फोन पर एक ऐप में एक संख्या बन गया है।

Digital Euro and its Development

डिजिटल यूरो और उसका विकास

- Anyone who pays by **digital bank transfer, PayPal, etc.** is already moving away from abstract wealth in the form of cash and towards **digital certificates**.
जो कोई डिजिटल बैंक ट्रांसफर, पेपैल आदि के माध्यम से भुगतान करता है, वह पहले ही नकद के रूप में अमूर्त संपत्ति से डिजिटल प्रमाणपत्रों की ओर बढ़ रहा है।
- **PayPal** therefore guarantees the seller that the buyer's bank will provide her with the money to pay for the product.
इस प्रकार, पेपैल विक्रेता को यह गारंटी देता है कि खरीदार का बैंक उत्पाद के भुगतान के लिए उसे पैसा प्रदान करेगा।
- This is the **decisive difference** from the **digital euro**: it will not be used to digitally exchange **debt claims** between different **financial service providers** that are intermediaries between buyers and sellers.
यह डिजिटल यूरो से निर्णायक अंतर है: इसका उपयोग विभिन्न वित्तीय सेवा प्रदाताओं के बीच ऋण दावे को डिजिटल रूप से आदान-प्रदान करने के लिए नहीं किया जाएगा, जो खरीदारों और विक्रेताओं के बीच मध्यस्थ होते हैं।
- Instead, it is a **digital version** of legally valid cash.
इसके बजाय, यह कानूनी रूप से मान्य नकद का एक डिजिटल संस्करण है।
- In **November 2023**, the **EU Commission** clarified the digital euro will be open to all citizens and won't be limited to settling **bills of exchange in interbank transactions**.
नवंबर 2023 में, EU आयोग ने स्पष्ट किया कि डिजिटल यूरो सभी नागरिकों के लिए खुलेगा और इंटरबैंक लेनदेन में विनिमय पत्रों को निपटाने तक सीमित नहीं रहेगा।

Consolidation of Private Property

निजी संपत्ति का एकीकरण

- On the one hand, the **digital euro** is nothing but a collection of **zeros and ones, bits and bytes**, like the characters on our **banking apps**.
एक ओर, डिजिटल यूरो कुछ नहीं बल्कि शून्य और एक का संग्रह है, बिट्स और बाइट्स, जैसे हमारे बैंकिंग ऐप्स पर पात्र।
- On the other, we shouldn't be fooled: this similarity doesn't alter the **fundamental difference** in the **political economy** of the **digital euro** and **debt to the bank**.
दूसरी ओर, हमें धोखा नहीं खाना चाहिए: यह समानता डिजिटल यूरो और बैंक के ऋण की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में मूलभूत अंतर को नहीं बदलती।
- In contrast to the **digital book money** of the banks, the new currency is just **cash** in a **technically new form** and thus introduces the possibility of **direct payment** in the **digital space**.





बैंकों के डिजिटल बुक मनी के विपरीत, नई मुद्रा केवल नकद है, जो एक तकनीकी रूप से नया रूप है और इस प्रकार डिजिटल स्पेस में प्रत्यक्ष भुगतान की संभावना प्रस्तुत करती है।

- This **emancipates** the sphere of circulation on the **internet** from financial service providers and allows **direct transactions** between users.

यह इंटरनेट पर परिवर्तन के क्षेत्र को वित्तीय सेवा प्रदाताओं से मुक्त करता है और उपयोगकर्ताओं के बीच प्रत्यक्ष लेन-देन की अनुमति देता है।

- There are also **technical consequences**. While payment transactions with debt relationships to banks or financial service providers such as **PayPal** can only be processed via the **internet**, the **digital euro** also allows **offline payments**.

इसके अलावा, तकनीकी परिणाम भी हैं। जबकि बैंकों या वित्तीय सेवा प्रदाताओं जैसे पेपैल से ऋण संबंधी भुगतान लेन-देन केवल इंटरनेट के माध्यम से ही संसाधित किए जा सकते हैं, डिजिटल यूरो ऑफलाइन भुगतान की भी अनुमति देता है।

- As offline payments are supposed to be **anonymous**, public opinion often emphasizes that the new **digital currency** “can keep up with the **anonymity of cash**,” as e-euro expert **Tobias Weidemann** says.

चूंकि ऑफलाइन भुगतान गुमनाम होने चाहिए, इसलिए सार्वजनिक राय अक्सर इस बात पर जोर देती है कि नई डिजिटल मुद्रा "नकद की गुमनामी के साथ तालमेल बिठा सकती है," जैसा कि ई-यूरो विशेषज्ञ टोबियस वीडेमैन कहते हैं।

- **Anonymity** is certainly possible with the right technical design but it can't be the **principal motivation** to develop the **digital euro**.

गुमनामी निश्चित रूप से सही तकनीकी डिज़ाइन के साथ संभव है, लेकिन यह डिजिटल यूरो विकसित करने के लिए प्राथमिक प्रेरणा नहीं हो सकती।

- The list of good reasons for the **digital euro** are derived from the justifications for **money 1.0**. **डिजिटल यूरो** के लिए अच्छे कारणों की सूची मनी 1.0 के औचित्य से निकाली गई है।

- The euro's functional definition, as a tool for **private owners** who may find it difficult to sell their goods or buy others' without money, is repeated with **digital money**.

यूरो की कार्यात्मक परिभाषा, निजी मालिकों के लिए एक उपकरण के रूप में, जिन्हें पैसे के बिना अपने सामान को बेचना या दूसरों का सामान खरीदना कठिन हो सकता है, डिजिटल पैसे के साथ दोहराई जाती है।

- “It would be just as practical at **flea markets** or in **classified ads** as it would be among **friends** when they are settling accounts for a **joint undertaking**,” per Mr. Weidemann.

"यह फ्ली मार्केट्स या क्लासिफाइड एड्स में उतना ही व्यावहारिक होगा जितना कि दोस्तों के बीच जब वे एक संयुक्त प्रयास के लिए खाता निपटारा कर रहे होते हैं," श्री वीडेमैन के अनुसार।

- In each case, **private property** is first assumed and money is then presented as practical so that its **circulation** is guaranteed.

प्रत्येक मामले में, पहले निजी संपत्ति को माना जाता है और फिर पैसे को व्यावहारिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है ताकि इसका परिवहन सुनिश्चित हो सके।

- This is a **circular argument**: money as abstract wealth is nothing other than the **objectification** of private property in **pocket size**.

यह एक परिपत्र तर्क है: अमूर्त संपत्ति के रूप में पैसा कुछ और नहीं बल्कि निजी संपत्ति का वस्तुवादीकरण है, जो जेब के आकार में है।





- Money is not only practical but practically **necessary** in a society in which everything is subject to the **service of property**.

पैसा न केवल व्यावहारिक है बल्कि एक ऐसे समाज में व्यावहारिक रूप से आवश्यक है जिसमें हर चीज़ संपत्ति की सेवा में है।

Money is evolving

"पैसा विकसित हो रहा है"

- The ECB presents the advantages of the new currency in three steps. The first headline claims "money is evolving".
ECB नई मुद्रा के लाभ को तीन चरणों में प्रस्तुत करता है। पहला शीर्षक कहता है "पैसा विकसित हो रहा है"।
- This is of course a lie with which the ECB simply claims its **monetary policy ambitions** as an intrinsic necessity of modern currencies and thus sells it as a necessary evolutionary stage.
यह बेशक एक झूठ है, जिसके द्वारा ECB अपनी **मौद्रिक नीति की महत्वाकांक्षाओं** को आधुनिक मुद्राओं की एक आंतरिक आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत करता है और इस प्रकार इसे एक आवश्यक विकासात्मक चरण के रूप में बेचता है।
- This is also advertising in the spirit of justification: one's own action is the midwife of an evolution that is coming, midwife or not.
यह एक प्रकार की प्रचार है जो औचित्य की भावना में है: अपनी खुद की क्रिया एक आने वाली विकास की दाई है, चाहे वह दाई हो या नहीं।
- It follows this with the well-known reinterpretation of money as a **technical achievement**, which in its **digital version** would do more to "make life easier", a practical experience that probably only really applies to those who don't only depend on money in principle to live but also have enough of it.
इसके बाद यह पैसे को एक **तकनीकी उपलब्धि** के रूप में पुनः व्याख्यायित करता है, जो इसके **डिजिटल संस्करण** में "जीवन को सरल बनाने" के लिए अधिक काम करेगा, एक व्यावहारिक अनुभव जो शायद केवल उन्हीं पर लागू होता है जो केवल सिद्धांत रूप में पैसे पर निर्भर नहीं होते, बल्कि उनके पास पर्याप्त पैसा भी होता है।
- But it is precisely these people who are at stake when **smart contracts** are to be concluded with the **digital euro**.
लेकिन यही लोग जोखिम में होते हैं जब **डिजिटल यूरो** के साथ **स्मार्ट अनुबंध** किए जाते हैं।

Contribution to Europe's sovereignty

यूरोप की संप्रभुता में योगदान

- The ECB's move is to strengthen the home of the **euro** through its **digital variant**.
ECB की यह पहल यूरो को इसके **डिजिटल संस्करण** के माध्यम से मजबूत करने के लिए है।
- This is the imperialist twist: technical emancipation from **financial service providers** that are not headquartered in the EU and threaten to dominate **digital payment options**.
यह साम्राज्यवादी मोड़ है: उन **वित्तीय सेवा प्रदाताओं** से तकनीकी मुक्ति जो EU में मुख्यालय नहीं रखते और **डिजिटल भुगतान विकल्पों** पर कब्जा करने की धमकी देते हैं।





- The ECB claims a “**digital euro** would ... contribute to the competitiveness and resilience of our **payments landscape** vis-à-vis **payment service providers** from non-European countries.”
ECB का दावा है कि "डिजिटल यूरो ... हमारे भुगतान परिदृश्य की प्रतिस्पर्धात्मकता और लचीलापन को गैर-यूरोपीय देशों से भुगतान सेवा प्रदाताओं के मुकाबले बढ़ाएगा।"
- Herein lies the rub: because it is not Europe’s own **financial service providers** that have prevailed as a **digital payment** alternative in the competition between financial capitalists, the EU wants to use a state alternative to prevent the **digital circulation sphere** from becoming dependent on **U.S. capital**.
यहां समस्या है: क्योंकि यह यूरोप के अपने वित्तीय सेवा प्रदाता नहीं हैं जिन्होंने वित्तीय पूंजीपतियों के बीच प्रतिस्पर्धा में डिजिटल भुगतान विकल्प के रूप में सफलता प्राप्त की है, EU राज्य विकल्प का उपयोग करना चाहता है ताकि डिजिटल परिसंचरण क्षेत्र अमेरिकी पूंजी पर निर्भर न हो जाए।
- But the European Union’s claim is not limited to this defensive prevention of foreign influence. लेकिन यूरोपीय संघ का दावा केवल विदेशी प्रभाव को रोकने तक सीमित नहीं है।
- Because the **digital euro** would be one of the first currencies available as a virtual means of payment, the EU hopes to destroy some of the business of **foreign competitors** as well.
क्योंकि डिजिटल यूरो वर्चुअल भुगतान साधन के रूप में उपलब्ध होने वाली पहली मुद्राओं में से एक होगा, EU उम्मीद करता है कि यह विदेशी प्रतिस्पर्धियों के कुछ व्यवसाय को भी नष्ट कर देगा।
- This strengthening of the **euro**, on its way to becoming **world money** used to do business everywhere in the **digital sphere**, is its political-economic claim.
यूरो का यह सुदृढीकरण, जो डिजिटल क्षेत्र में हर जगह व्यापार करने के लिए उपयोग होने वाली विश्व मुद्रा बनने की ओर बढ़ रहा है, इसका राजनीतिक-आर्थिक दावा है।
- It is better not to confuse this competition between the leading **imperialist nations** for a globally recognised currency with one’s own interest in shopping more easily on the internet.
इसलिए यह बेहतर है कि इस प्रमुख साम्राज्यवादी देशों के बीच वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त मुद्रा के लिए प्रतिस्पर्धा को इंटरनेट पर आसानी से खरीदारी करने में अपनी रुचि से भ्रमित न किया जाए।
- In this respect, those who understand the **digital euro** as a simplification of their lives and those who fear the “**transparent consumer**” are both wrong.
इस संदर्भ में, जो लोग डिजिटल यूरो को अपने जीवन को सरल बनाने के रूप में समझते हैं और जो "पारदर्शी उपभोक्ता" से डरते हैं, दोनों गलत हैं।
- It’s simply not about the effects of the currency on citizens.
यह केवल नागरिकों पर मुद्रा के प्रभाव के बारे में नहीं है।



Trial reforms, promoting mediation among new Chief Justice's priorities

GS Paper II: Judiciary

Krishnadas Rajagopal

NEW DELHI

Justice Sanjiv Khanna, who took oath as the 51st Chief Justice of India on Monday, said the core principles of the judiciary was to provide equal treatment, fair opportunity at justice to all and unbiased adjudication to all, regardless of status, wealth or power.

Chief Justice Khanna, in an official statement released by the Supreme Court, said judges had a "constitutional duty to ensure easy access to justice to all citizens of our great nation".

"Judiciary is an integral, yet distinct and independent part of the governance system. The Constitution trusts upon us the role of constitutional guardian, protector of fundamental rights, and responsibility to fulfil the important task of being service provider of justice," Chief Justice Khanna said.

He underscored the jud-



President Droupadi Murmu administering the oath of office to Justice Sanjiv Khanna at the Rashtrapati Bhavan on Monday. PTI

iciary's commitment and responsibility as "protectors of citizens' rights and dispute resolvers".

The Chief Justice identified his top priorities as making judgments comprehensible to the citizens, promotion of mediation, adoption of focused reforms in criminal case management such as reducing trial duration and efforts to make litigation less gruelling. He termed the judiciary the "third wing of democracy".

Chief Justice Khanna was administered the oath

of office by President Droupadi Murmu at the Rashtrapati Bhavan.

The short but impressive ceremony saw Vice-President Jagdeep Dhankhar, Prime Minister Narendra Modi, Ministers, former Chief Justices of India, and sitting and retired judges of the Supreme Court and High Courts in attendance.

Six-month tenure

Justice Khanna succeeds Justice D.Y. Chandrachud, and is scheduled to retire on May 13, 2025.

After being sworn in, Chief Justice Khanna acknowledged the gathered audience before travelling to the Supreme Court to hear the 47 cases listed at Court One – as the Chief Justice's court is called.

Next door, in Court Two, where he had presided for months before his appointment as the Chief Justice, hangs the life-size portrait of his uncle, the legendary Justice H.R. Khanna, whose championing of personal liberty during the dark days of Emergency in 1977 cost him his Chief Justiceship of India. The story of the elder Justice Khanna still resonates as activists and citizens booked under draconian laws struggle for bail.

The Chief Justice, in the statement, identified case backlogs, making litigation affordable and accessible, and the need for simplifying complex legal procedures as the key challenges ahead of him during his six-month tenure.

Trial reforms, promoting mediation among new Chief Justice's priorities

नए मुख्य न्यायाधीश की प्राथमिकताओं में ट्रायल सुधार, मध्यस्थता को बढ़ावा देना शामिल

Website: patrioticias.in

Telegram Channel: <https://t.me/patrioticIAS>





Justice Sanjiv Khanna Becomes the 51st Chief Justice of India **न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने**

- Justice Sanjiv Khanna took oath as the 51st **Chief Justice of India** on **Monday**.
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने **सोमवार** को भारत के 51वें **मुख्य न्यायाधीश** के रूप में शपथ ली।
- He emphasized the core principles of the judiciary: to provide equal treatment, fair opportunity at justice to all, and unbiased adjudication to all, regardless of **status, wealth, or power**.
उन्होंने न्यायपालिका के मुख्य सिद्धांतों पर जोर दिया: सभी को समान उपचार, न्याय में उचित अवसर, और **स्थिति, धन या सत्ता** से स्वतंत्र निष्पक्ष निर्णय।
- In an official statement, he said judges have a "constitutional duty to ensure easy access to justice to all citizens of our great nation".
एक आधिकारिक बयान में, उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों का "संवैधानिक कर्तव्य है कि वे हमारे महान देश के सभी नागरिकों को न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करें।"
- Chief Justice Khanna described the judiciary as an integral, yet distinct and independent part of the governance system.
मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने न्यायपालिका को शासन व्यवस्था का एक अभिन्न, लेकिन विशिष्ट और स्वतंत्र हिस्सा बताया।
- He stated that the Constitution entrusts the judiciary with the role of **constitutional guardian**, protector of **fundamental rights**, and the responsibility to fulfill the important task of being **service provider of justice**.
उन्होंने कहा कि संविधान न्यायपालिका को **संवैधानिक रक्षक, मौलिक अधिकारों** का संरक्षक और न्याय प्रदान करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपता है।
- Chief Justice Khanna stressed the judiciary's commitment as "protectors of citizens' rights and dispute resolvers".
मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को "नागरिकों के अधिकारों के रक्षक और विवाद समाधानकर्ता" के रूप में रेखांकित किया।
- He identified his top priorities as **making judgments comprehensible, promotion of mediation, criminal case management reforms** like reducing trial duration, and efforts to make litigation **less gruelling**.
उन्होंने अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में **निर्णयों को समझने योग्य बनाना, मध्यस्थता को बढ़ावा देना, अपराध मामलों के प्रबंधन में सुधार** जैसे मुकदमे की अवधि को कम करना, और मुकदमेबाजी को **कम कष्टदायक** बनाने के प्रयासों की पहचान की।
- Chief Justice Khanna called the judiciary the "third wing of democracy".
मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने न्यायपालिका को "लोकतंत्र के तीसरे पंख" के रूप में माना।
- He was sworn in by **President Droupadi Murmu** at **Rashtrapati Bhavan**.
उन्हें **राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू** ने **राष्ट्रपति भवन** में शपथ दिलाई।
- The oath ceremony was attended by **Vice-President Jagdeep Dhankhar, Prime Minister Narendra Modi, Ministers, former Chief Justices of India, and judges of the Supreme Court and High Courts**.
शपथ ग्रहण समारोह में **उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मंत्रीगण, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों** ने भाग लिया।





- Justice Khanna succeeds **Justice D.Y. Chandrachud**, and is scheduled to retire on **May 13, 2025**.
न्यायमूर्ति खन्ना ने न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ का स्थान लिया, और उनका सेवानिवृत्ति 13 मई 2025 को निर्धारित है।
- After taking the oath, Chief Justice Khanna acknowledged the gathered audience before heading to the **Supreme Court** to hear 47 cases listed at **Court One**.
शपथ लेने के बाद, मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने एकत्रित दर्शकों का धन्यवाद किया और फिर **सुप्रीम कोर्ट** गए जहाँ **कोर्ट वन** में सूचीबद्ध **47 मामलों** की सुनवाई की।
- **Court Two**, where he had presided for months before his appointment as the Chief Justice, holds a life-size portrait of his uncle, **Justice H.R. Khanna**, a legendary figure who championed **personal liberty** during the **Emergency of 1977**.
कोर्ट टू, जहाँ उन्होंने मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले महीनों तक अध्यक्षता की थी, में उनके चाचा, न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना की जीवन-आकार की चित्राकृति है, जो 1977 के आपातकाल के दौरान व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक थे।
- The legendary Justice H.R. Khanna's stance during the Emergency still resonates as activists and citizens booked under draconian laws struggle for **bail**.
महान न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना का आपातकाल के दौरान लिया गया रुख आज भी गूंजता है क्योंकि **दमनकारी कानूनों** के तहत गिरफ्तार कार्यकर्ता और नागरिक **जमानत** के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
- Justice Khanna identified key challenges as **case backlogs**, **affordability of litigation**, and the need to simplify **complex legal procedures**.
न्यायमूर्ति खन्ना ने प्रमुख चुनौतियों के रूप में **मामलों का बैकलॉग**, **मुकदमेबाजी की सुलभता**, और **जटिल कानूनी प्रक्रियाओं** को सरल बनाने की आवश्यकता की पहचान की।



For farmers, daily pursuit of scarce DAP in sowing season

Farmers' unions have been protesting over fertilizer shortage and tardy procurement of paddy in Haryana and Punjab; they are worried the scarcity will delay sowing of wheat, affecting the crop

PCS

Nikhil M. Babu

KAITHAL/SANGRUR

At the Pradhan Mantri Kisan Samridhhi Kendra (PMKSK) at Bunna village of Kaithal district in Haryana, farmers keep coming on bicycles and motorcycles to enquire if diammonium phosphate (DAP), a chief fertilizer used while sowing wheat, is available, but they return home empty-handed.

"We don't have a single sack of DAP left, but everyone wants DAP," said a worker at the centre.

Farmers told *The Hindu* that while they were struggling to procure DAP, private shops were selling it either at a premium or forcing them to buy fertilizers or pesticides that they did not need along with it. Farmers in Punnawal village of Punjab also echoed similar views.

Farmers' unions have been protesting over the shortage of DAP and tardy procurement of paddy in both the States. Farmers are also worried that both the factors will delay sowing of wheat, which will negatively impact the produce.



Fully empty: A farmer walks out of a fertilizer godown empty-handed in Haryana. SHASHI SHEKHAR KASHYAP

At the office of Harbans Singh, Chief Agricultural Officer (CAO) in Sangrur of Punjab, at least two groups of farmers came to meet him for DAP in a 45-minute window on a November morning.

"Even a senior officer just called me to ask whether DAP is available. Everyone wants DAP," Mr. Singh said about the shortage, as he got another enquiry for DAP over his smartphone.

At the PMKSK in Bunna village, Raghuvir Singh, 50, said he has been trying to get DAP for the past two weeks. "I have to sow in

the next four or five days. If I don't get it through government, then I will have to buy it from private shops," he said.

He said that if he is unable to get DAP, then he will have to buy NPK, an alternative, but DAP gives better results. "Every other year there is a shortage of DAP. The government should increase the production," he said.

Ramesh Kumar, 57, came on a bike to the outlet, only to return empty-handed. "I have got eight bags of DAP and I need 14 more. If I do not get it from the government, then I will

have to buy it at ₹2,000 from private shops instead of ₹1,350 at the government," he said.

Harbans Singh said the Union government is selling nano DAP and nano urea to farmers along with the DAP. "The department (Punjab government) is telling farmers that if you do not need them, then do not buy them. The Punjab Agricultural University has not recommended it," he added.

Early morning queues

Meanwhile, Inderjit Singh, national vice-president of the left-affiliated All India Kisan Sabha (AIKS), said the shortage is a big issue in both the States. "Farmers are standing in queues for hours from as early as 4 a.m. at some places and going back home empty-handed. At many places in Haryana, DAP is being sold through the police due to the high demand."

He also said that the shortage is a planned and deliberate move by the government to increase prices. "Ultimately, the government wants to open up the fertilizer industry completely to the private sector," he said.





For farmers, daily pursuit of scarce DAP in sowing season

किसानों के लिए, बुवाई के मौसम में दुर्लभ डीएपी की दैनिक खोज

Farmers' unions have been protesting over fertilizer shortage and tardy procurement of paddy in Haryana and Punjab; they are worried the scarcity will delay sowing of wheat, affecting the crop

हरियाणा और पंजाब में खाद की कमी और धान की धीमी खरीद को लेकर किसान संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं; उन्हें चिंता है कि इस कमी के कारण गेहूं की बुवाई में देरी होगी, जिससे फसल प्रभावित होगी

Shortage of DAP Fertilizer in Haryana and Punjab हरियाणा और पंजाब में डीएपी उर्वरक की कमी

- At the **Pradhan Mantri Kisan Samridhhi Kendra (PMKSK)** in **Bunna village, Kaithal district, Haryana**, farmers continue to arrive by **bicycle and motorcycle** to inquire about the availability of **diammonium phosphate (DAP)**, a key fertilizer used for sowing wheat, but they return **empty-handed**.
प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) बुन्ना गाँव, कैथल जिला, हरियाणा में किसान बाइक और मोटरसाइकिल से डायमोनियम फॉस्फेट (DAP), जो गेहूँ बोने के लिए मुख्य उर्वरक है, के बारे में पूछताछ करने आते हैं, लेकिन वे खाली हाथ लौट जाते हैं।
- A worker at the center stated, "**We don't have a single sack of DAP left, but everyone wants DAP.**"
केंद्र पर एक कर्मचारी ने कहा, "हमारे पास एक भी बोरी DAP की नहीं बची है, लेकिन सभी को DAP चाहिए।"
- Farmers mentioned to **The Hindu** that while they struggled to obtain DAP, **private shops** were either selling it at a **premium** or forcing them to buy other fertilizers or pesticides they did not need.
किसानों ने द हिंदू को बताया कि जबकि वे DAP प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, **निजी दुकानें** इसे महंगे दामों पर बेच रही थीं या उन्हें अन्य उर्वरक या कीटनाशक खरीदने के लिए मजबूर कर रही थीं, जिनकी उन्हें जरूरत नहीं थी।
- **Farmers' unions** have been protesting over the shortage of DAP and the **slow procurement of paddy** in both **Haryana and Punjab**. They are concerned that these issues could delay wheat sowing, negatively affecting the crop yield.
किसान यूनियनों DAP की कमी और धान की धीमी खरीद को लेकर हरियाणा और पंजाब में विरोध





कर रही हैं। उनका मानना है कि इन समस्याओं से गेहूँ की बुआई में देरी हो सकती है, जिससे फसल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

- At the office of **Harbans Singh, Chief Agricultural Officer (CAO) in Sangrur, Punjab**, two groups of farmers arrived within a **45-minute window** in **November** to inquire about DAP availability.

हरबंस सिंह, मुख्य कृषि अधिकारी (CAO), संगरूर, पंजाब के कार्यालय में **नवंबर** में **45 मिनट** की खिड़की में **दो किसान समूह** DAP की उपलब्धता के बारे में पूछताछ करने आए।

- Harbans Singh mentioned that **the Union government** is selling **nano DAP** and **nano urea** to farmers alongside DAP. The **Punjab government** advises farmers that if they don't need them, they should not buy them.

हरबंस सिंह ने बताया कि **केंद्र सरकार** किसानों को DAP के साथ **नैनो DAP** और **नैनो यूरिया** भी बेच रही है। **पंजाब सरकार** किसानों को सलाह देती है कि अगर उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है, तो इसे न खरीदें।

- **Inderjit Singh, national vice-president** of the **All India Kisan Sabha (AIKS)**, stated that the DAP shortage is a significant issue in both states, with farmers standing in long queues from as early as **4 a.m.** and returning empty-handed.

इंदरजीत सिंह, ऑल इंडिया किसान सभा (AIKS) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ने कहा कि DAP की कमी दोनों राज्यों में एक बड़ी समस्या है, जहां किसान **सुबह 4 बजे** से लंबी कतारों में खड़े होते हैं और **खाली हाथ** लौट जाते हैं।

- He also claimed that the shortage was a **planned and deliberate move** by the government to **increase prices**, with the ultimate aim of opening up the fertilizer industry to the **private sector**. उन्होंने यह भी कहा कि यह कमी सरकार की **योजना और जानबूझकर कदम** थी ताकि **मूल्य बढ़ाए जा सकें**, और इसका अंतिम उद्देश्य **उर्वरक उद्योग को निजी क्षेत्र के लिए खोलना** है।



Women naval officers circumnavigating globe reach Australia in their first stop

Women naval officers

PCS

Dinakar Peri
NEW DELHI

After a 39-day voyage at sea, two women officers undertaking a global circumnavigation expedition in Indian Naval Sailing Vessel *Tarini*, arrived at its first port of call in Australia on Saturday after covering a distance of 4,900 nautical miles from Goa. The historic expedition was flagged off from Goa by Navy chief Admiral Dinesh K. Tripathi on October 2.

Around 2.30 p.m. IST on November 9, after a challenging 39-day voyage at sea under Navika Sagar Parikrama-II, *INSV Tarini* arrived at its first port of call in Fremantle, Australia, the Navy said in a statement.

“The vessel has covered a distance of 4,900 NM from Goa, crossing the Equator on October 16 and the Tropic of Capricorn on October 27. During this 38-



Two women Navy officers, Dilna K. and Roopa A., aboard *INSV Tarini* arrive at the first port of call in Fremantle, Australia. ANI

day non-stop voyage, the Indian Navy duo of Lt. Cdr. Dilna K. and Lt. Cdr. Roopa A. encountered a range of weather conditions from calm to severe, facing winds up to 40 knots and sea state of six,” the Navy said.

Throughout the journey, the crew remained in good health and high spirits, demonstrating resilience in the face of extreme conditions, it stated. The progress of the expedi-

tion has been closely followed by Admiral Tripathi receiving daily updates.

As *INSV Tarini* arrived in Fremantle, it was given a warm welcome by dignitaries, including the Consul-General of India at Perth, the Defence Adviser from Canberra, the Secretary of the Indian Navy Sailing Association (INSA), representatives from the Royal Australian Navy, along with members of the media and Indian naval

veterans residing in Australia. The celebration was further enriched by the sound of classical music, which the Tamil Association of Western Australia performed using *parai* (drum) and *kombu tharai* (drum), offering a rich cultural touch to the reception, the Navy said.

Commander Abhilash Tomy (retired), an accomplished sailor who has been mentoring the crew since August 2023, said they had sailed well till now.

“We estimated 35 days for the trip and the crew has managed in 38, which is quite fair,” he said on the first leg of the voyage. “There was a wide variety of conditions from calm to rough. The boat looks to be in good condition, which means that the crew has looked after it well, sailing conservatively but averaging good speeds,” he told *The Hindu*.

circumnavigating globe reach Australia in their first stop

महिला नौसेना अधिकारी विश्व का चक्कर लगाते हुए अपने पहले पड़ाव पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचीं

Historic Voyage of INSV Tarini

INSV तारिणी का ऐतिहासिक समुद्री यात्रा

- After a **39-day voyage** at sea, two women officers undertaking a global circumnavigation expedition in Indian Naval Sailing Vessel *Tarini*, arrived at its first port of call in **Australia** on **Saturday** after covering a distance of **4,900 nautical miles** from **Goa**.
39 दिन की समुद्री यात्रा के बाद, भारतीय नौसेना की सेलिंग जहाज *INSV तारिणी* में वैश्विक परिभ्रमण अभियान में दो महिला अधिकारियों ने गोवा से **4,900 समुद्री मील** की दूरी तय करने के बाद **शनिवार** को **ऑस्ट्रेलिया** के पहले बंदरगाह पर पहुंची।

Website: patrioticias.in

Telegram Channel: <https://t.me/patrioticIAS>





- The historic expedition was flagged off from **Goa** by Navy chief **Admiral Dinesh K. Tripathi** on **October 2**.
ऐतिहासिक अभियान को गोवा से नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने 2 अक्टूबर को झंडी दिखाई थी।
- Around **2.30 p.m. IST** on **November 9**, after a challenging **39-day voyage** at sea under **Navika Sagar Parikrama-II**, INSV Tarini arrived at its first port of call in **Fremantle, Australia**, the Navy said in a statement.
9 नवंबर को 2:30 बजे IST के करीब, **Navika Sagar Parikrama-II** के तहत **39 दिन** की चुनौतीपूर्ण समुद्री यात्रा के बाद, **INSV तारिणी** ने **फ्रेमेंटल, ऑस्ट्रेलिया** के पहले बंदरगाह पर पहुंची, नौसेना ने एक बयान में कहा।
- The vessel has covered a distance of **4,900 NM** from **Goa**, crossing the **Equator** on **October 16** and the **Tropic of Capricorn** on **October 27**.
जहाज ने गोवा से **4,900 NM** की दूरी तय की, **16 अक्टूबर** को **श्रृंग (Equator)** और **27 अक्टूबर** को **मकर रेखा (Tropic of Capricorn)** को पार किया।
- During this **38-day non-stop voyage**, the Indian Navy duo of **Lt. Cdr. Dilna K.** and **Lt. Cdr. Roopa A.** encountered a range of weather conditions from calm to severe, facing winds up to **40 knots** and sea state of **six**, the Navy said.
इस **38 दिन** की निरंतर यात्रा के दौरान, भारतीय नौसेना की जोड़ी **लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के. और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए.** को शांत से लेकर गंभीर मौसम की स्थिति का सामना करना पड़ा, जिसमें **40 नॉट्स** तक की हवाएं और समुद्र की स्थिति **छह** रही, नौसेना ने कहा।
- Throughout the journey, the crew remained in **good health** and high spirits, demonstrating **resilience** in the face of extreme conditions, it stated.
यात्रा के दौरान, चालक दल **अच्छे स्वास्थ्य** में और उच्च मनोबल में रहा, जो चरम परिस्थितियों का सामना करते हुए **लचीलापन** प्रदर्शित कर रहा था, यह कहा गया।
- The progress of the expedition has been closely followed by **Admiral Tripathi** receiving daily updates.
अभियान की प्रगति को **एडमिरल त्रिपाठी** द्वारा रोजाना अपडेट प्राप्त होते हुए करीबी से ट्रैक किया गया।
- As INSV Tarini arrived in Fremantle, it was given a warm welcome by dignitaries, including the **Consul-General of India at Perth**, the **Defence Adviser** from **Canberra**, the **Secretary of the Indian Navy Sailing Association (INSA)**, representatives from the **Royal Australian Navy**, along with members of the media and Indian naval veterans residing in Australia.
जब **INSV तारिणी** फ्रेमेंटल पहुंची, तो उसे पर्थ में **भारत के महावाणिज्यदूत, कैनबरा से रक्षा सलाहकार, भारतीय नौसेना सेलिंग एसोसिएशन (INSA) के सचिव, रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना** के प्रतिनिधियों, मीडिया के सदस्य और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय नौसैनिक **ветеранों** द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया।
- The celebration was further enriched by the sound of **classical music**, which the **Tamil Association of Western Australia** performed using **parai** (drum) and **kombu tharai** (drum), offering a rich cultural touch to the reception, the Navy said.
उत्सव को और भी समृद्ध किया गया **क्लासिकल संगीत** के साथ, जिसे **वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया** की





तमिल एसोसिएशन ने पारई (ढोल) और कॉबू थाराई (ढोल) का उपयोग करके प्रस्तुत किया, जो स्वागत समारोह को एक समृद्ध सांस्कृतिक स्पर्श प्रदान करता है, नौसेना ने कहा।

- **Commander Abhilash Tomy** (retired), an accomplished sailor who has been mentoring the crew since **August 2023**, said they had sailed well till now.

कमांडर अभिलाश टोमी (सेवानिवृत्त), एक प्रख्यात नाविक जिन्होंने **अगस्त 2023** से चालक दल का मार्गदर्शन किया है, ने कहा कि अब तक वे अच्छे से यात्रा कर चुके हैं।

- “We estimated **35 days** for the trip and the crew has managed in **38**, which is quite fair,” he said on the first leg of the voyage.

"हमने यात्रा के लिए **35 दिन** का अनुमान लगाया था और चालक दल ने **38 दिन** में इसे पूरा किया, जो कि काफी उचित है," उन्होंने यात्रा के पहले चरण में कहा।

- “There was a wide variety of conditions from calm to rough. The boat looks to be in good condition, which means that the crew has looked after it well, sailing conservatively but averaging good speeds,” he told The Hindu.

"चालक दल ने इसे अच्छी तरह से देखा है, और जहाज अच्छा स्थिति में दिखता है, इसका मतलब है कि चालक दल ने इसे अच्छी तरह से संभाला है, सहेजते हुए लेकिन अच्छी गति बनाए रखते हुए," उन्होंने **The Hindu** से कहा।



EAM bats for trade in national currencies ahead of Russia meet

Kallol Bhattacharjee

NEW DELHI

Ahead of the 25th session of the India-Russia Inter-Governmental Commission meeting, External Affairs Minister S. Jaishankar (2024) said bilateral trade in national currencies is of “great importance”.

Speaking at the India-Russia Business Forum in Mumbai, he said bilateral trade between the two countries is presently at \$66 billion and declared that the figure will touch \$100 billion by 2030.

The senior Indian Minister reminded of the current global conditions in which the mutual trade between India and Russia had surged ahead and reiterated the world was moving towards multipolarity.

“Special Rupee Vostro Accounts are right now an effective mechanism. However even in the short



S. Jaishankar

run, better trade balance with national currency settlements is the answer,” the Minister said.

He highlighted INSTC, Chennai-Vladivostok Corridor and Northern Maritime Route as the three connectivity initiatives the two sides were working on.

He also pointed out bilateral deal between the customs authorities of India and Russia on Authorised Economic Operators has had a ‘big impact on smoothening the ease of doing business’.

EAM bats for trade in national currencies ahead of Russia meet

विदेश मंत्री ने रूस बैठक से पहले राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार की वकालत की

India-Russia Bilateral Trade and Connectivity Initiatives

भारत-रूस द्विपक्षीय व्यापार और कनेक्टिविटी पहलों

• Ahead of the 25th session of the India-Russia Inter-Governmental Commission meeting, External Affairs Minister S. Jaishankar (2024) said bilateral trade in national currencies is of “great importance.”

भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग की 25वीं बैठक से पहले, विदेश मंत्री श्री एस. जयशंकर (2024) ने कहा कि राष्ट्रीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार “महत्वपूर्ण है।”

• Speaking at the India-Russia Business Forum in Mumbai, he said bilateral trade between the two countries is presently at **\$66 billion** and declared that the figure will touch **\$100 billion** by 2030.

मुंबई में भारत-रूस व्यापार मंच पर बोलते हुए, उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में **66 अरब डॉलर** है और उन्होंने घोषणा की कि यह 2030 तक **100 अरब डॉलर** तक पहुंच जाएगा।

- The senior Indian Minister reminded of the current global conditions in which the mutual trade between India and Russia had surged ahead and reiterated the world was moving towards **multipolarity**.

वरिष्ठ भारतीय मंत्री ने वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों का जिक्र किया, जिनमें भारत और रूस के





बीच आपसी व्यापार में तेजी आई है और उन्होंने यह दोहराया कि दुनिया बहु-ध्रुवीयता की ओर बढ़ रही है।

- “Special Rupee Vostro Accounts are right now an effective mechanism. However even in the short run, better trade balance with national currency settlements is the answer,” the Minister said.

"विशेष रुपी वॉस्ट्रो खाता वर्तमान में एक प्रभावी तंत्र है। हालांकि, यहां तक कि छोटे समय में, राष्ट्रीय मुद्रा से निपटान के साथ बेहतर व्यापार संतुलन ही उत्तर है," मंत्री ने कहा।

- He highlighted **INSTC, Chennai-Vladivostok Corridor** and **Northern Maritime Route** as the three connectivity initiatives the two sides were working on.

उन्होंने **INSTC, चेन्नई-व्लादिवोस्तोक गलियारा** और **उत्तरी समुद्री मार्ग** को तीन कनेक्टिविटी पहलों के रूप में उजागर किया जिन पर दोनों पक्ष काम कर रहे थे।

- He also pointed out the bilateral deal between the customs authorities of India and Russia on **Authorised Economic Operators** has had a ‘big impact on smoothening the ease of doing business.’

उन्होंने यह भी बताया कि भारत और रूस के कस्टम अधिकारियों के बीच **अधिकार प्राप्त आर्थिक ऑपरेटरों** पर द्विपक्षीय समझौते ने 'व्यवसाय करने में आसानी को सरल बनाने पर बड़ा प्रभाव' डाला है।

